

- -॥ श्री ॥

चमकती

मंगलमय नित्य स्मरणा

[प्रथम भाग]

रचयिता -

पूज्य श्री घासीलालजी महाराज

— ❁ —

संग्रहकर्ता

जगत् गुरु तपस्वी श्री चान्द मुनिजी महाराज

— ❁ —

प्रथमावृत्ति

मूल्य २)

धीर सम्पत्

२०००

२४८८

प्रकाशकः—

इन्द्रमल मांगीलाल बडाला
सिन्दु (राजस्थान)

मांगीलाल भंवरलाल तलेसरा
गडवाड़ा (राजस्थान)

—:●:—

पुस्तक मिलने का पता:—

कन्हैयालाल कस्तुरचन्द बम्ब
प्रीतम नगर, बायां रतलाम (म. प्र.)

रतनलाल वीरवाल जैन

पलाना कलाँ (राजस्थान)

—:●:—

मुद्रकः—

शाह अर्जुनलाल सोनी

श्री हिन्दू कानून प्रि० प्रेस, कांकरोली (राज०)

क्षे-शब्द

आज का मानव भौतिक वाद की अन्या-
धुन्धी में सतप्त एवं पीडित हो रहा है अर्थवाद
ने मानव समाज पर इतना साम्राज्य जमा लिया
है कि वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति से दूर होता जा
रहा है यही कारण है कि मानव शक्ति सम्पन्न
होते हुए भी अपने आप को असीर ही पाना है
और विचारों के साथ दुःखी सा बन जाता है ।

इस परिस्थिति में मानव की उद्वेगता
एवं मानसिक एकाग्रता का स्थापन होना अत्या-
वश्यक है पृष्ठ श्री १००२ श्री घामीलालजी म
सा ने मानव समाज के दुःख विमुक्ति निमित्त
अद्भुत नव स्मरण की सस्कृत में रचना की

जो पहले हिन्दी व गुजराती अर्थ में प्रकाशित हुई है पूज्य श्री के प्रशिष्य जगत् गुरु तपस्वी श्री चान्द मुनिजी म. सा. ने कुछ नई रचनाओं का और संग्रह कर इसके साथ जोड़कर इस नव स्मरण को और भी प्रेरक कर दिया है जिसको प्रकाशक ने जन हितार्थ हिन्दी अर्थ में "चमकती मंगलमय नित्य स्मरण" के नाम से प्रकाशित कर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है आशा है जन मानस इसका पाठ कर अपने दुखों से अवश्य विमुक्त होंगे । शुभम् !

भवदीय--

भंवरलाल जैन

नोट-पृष्ठ ६४ पक्ति १ में द्रभाव की जगह प्रभाव पढ़ें ।

अर्थ सहायता दाताओं की सूचि

- श्रीमान् ताराचन्दजी सा गडवाड़ा रु० ११।)
- „ गोरीदासजी च० भवरलालजी बोहरा १२।)
- „ भवरलाल जी बोहरा २५।)
- „ स्व० नारूलालजी बो की धर्म पत्नी ६।)
- „ „ मेरूलालजी तनैसरा की धर्मपत्नी ११२।)
- नोबीबाई एव पुत्र श्रीमांगीलालजी
- „ छगनलालजी सा सीगवी की धर्मपत्नी १४)
- हमेर बाई
- „ माधुलाल जी सा की धर्म पत्नी ६)
- कन्चनबाई
- „ स्व रतनलालजी लौटा की धर्म पत्नी ८)
- „ नागयणजी चारण की धर्मपत्नी लीजीबाई ६)
- „ रत्नदास जी सा ८)
- „ मगनलाल जी सा बोहरा १०)
- „ नाथूलाल जी कटारा ६)

पुस्तके भेट दाताओं की सूचि आन्वीर मे पडें।

विषयानुक्रमिका

विषय

पृष्ठ

	मंगल वन्दन	१-	३
	नव स्मरण महात्म्य	३-	२८
१	नवकार स्मरण	१६-	२४
२	श्री वर्द्धमान भक्तामर	२५-	७२
३	सुख स्मरण	७३-	८२
४	संपत्स्मरण	८३-	१२२
५	ऋद्धि स्मरण	१२२-	१४२
६	सिद्धि स्मरण	१४२-	१५३
७	जय स्मरण	१५३-	१५८
८	विजय स्मरण	१५८-	१६७
९	शान्ति स्मरण	१६८-	१६३
	श्री गौतम रास	१६५-	२०३
	दशत्रे कालिक सूत्र	२०४-	२०८
	श्री वीर स्तुति	२०६-	२१५
	मंगल पाठ		२१६

॥ श्री ॥

चमकती मङ्गलमय नित्य स्मरण

— ५ —

नवस्मरण स्तोत्र

मङ्गल वन्दन—

वर्धमानं जिन नत्वा,
नत्वा गौतमनाथकम् ।
घासीलालेन मुनिना,
नवस्मरणमुच्यते ॥१॥

जिनेश्वर श्री वर्धमान भगवान को, और गण
नायक श्री गौतम स्वामी को नमस्कार करके श्री
घासीलालेन मुनि " नवस्मरण " कहते हैं ॥ १ ॥

नव-नव-मङ्गल-जनकं,
 नव-नव-संमोद-सन्दोहम् ।
 नवनिधि-विधाननिपुणां,
 क्रियते शुभदं नवस्मरणम् ॥२॥

यह नवस्मरण, नवीन नवीन मङ्गल का जनक है, नवीन नवीन आनन्दराशि का दाता है, नवनिधियों के उत्पादन की अपूर्व शक्ति से युक्त है ऐसे अपूर्व प्रभावयुक्त, शुभदायक इस "नवस्मरण स्तोत्र" की रचना करते हैं ॥२॥

नमो-भक्त-सुखं संपद,
 ऋद्धिः सिद्धिर्जयस्तथा ।

॥ श्री ॥

अद्भुतनवस्मरणस्तोत्र

—:५:—

वर्धमान जिन नत्वा,
नत्वा गौतमनायकम् ।
चाद मुनिना,
नवस्मरणमुच्यते ॥ १ ॥

मङ्गलाचरण—

जिनेश्वर श्री वर्धमान भगवान को श्रीर गण
नायक श्री गौतम स्वामी को नमस्कार करके श्री
चाद मुनि ' नवस्मरण ' कहते हैं ॥ १ ॥

नव-नव-मङ्गल-जनकं,
 नव-नव-संमोद-सन्दोहम् ।
 नवनिधि-विधाननिपुणां,
 क्रियते शुभदं नवस्मरणम् ॥ २ ॥

यह नवस्मरण, ज्वीन नवीन मङ्गल का
 जनक है, नवीन नवीन आनन्दराशि का दाता
 है, नवनिधियों के उत्पादन की अपूर्व शक्ति
 से युक्त है ऐसे अपूर्व प्रभावयुक्त, शुभदायक इस
 "नवस्मरण स्तोत्र" की रचना करते हैं ॥ २ ॥

नमो-भक्त-सुखं संपद्,
 ऋद्धिः सिद्धिर्जयस्तथा ।

विजयश्चापि शान्तिश्च,
नवस्मरणमीरितम् ॥ ३ ॥

इयं “ नवस्मरण ” में (१) नमस्काररूप
मङ्गलस्मरण, (२) भक्त्यामररूप आनन्दस्मरण,
(३) सुप्रस्मरण, (४) सपत्स्मरण, (५) श्रद्धि
स्मरण, (६) सिद्धिस्मरण (७) जयस्मरण,
(८) विजयस्मरण और (९) शान्तिस्मरण, इस
प्रकार नौ स्मरण हैं ।

नवस्मरणमहात्म्य

सर्वमैत्रीकरंस्तोत्रं, सर्वथाशान्तिकारकं ।
सर्वदुःखहरं चैव, सर्वकल्याणकारकम् ४

सभी के साथ मैत्री स्थापित करने में सहा-
यक, सभी प्रकार से शांति देने वाले, सभी
प्रकार के दुःखों को हरने वाले और सभी का
कल्याण करने वाले ये नव स्मरण हैं ॥ ४ ॥

कासः श्वासो ज्वरो दाहः,
कुक्षिशूलं भगन्दग्म् ।
अर्शोऽजीर्ण-दृष्टिशूलं,
मूर्धशूलमरोचकः ॥५॥
अक्षिशूलं कर्णशूलं,
कण्ठरोगोजलोद्गरम् ।

कृष्ट च व्याधयः सर्वे,

विनश्यन्ति न सशयः ॥६॥

इत नव मरणों से (१) ग्यासी, (२) दमा,
 (३) ज्वर (४) दाह-ज्वर, (५) पेट का दर्द,
 (६) बवासीर, (७) अनीर्ण, (८) त्रिपिण्डुल,
 (९) भगन्दर, (१०) मस्तकशूल, (११) अरुचि,
 (१२) आर्य का दर्द, (१३) कान का दर्द,
 (१४) फण्ठमाला, (१५) जलोदर और (१६)
 कृष्ट आदि समस्त व्याधिया नष्ट होजाती है,
 इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है ॥ ५-६॥

एतत्प्रभावात् सिहाद्या,

दृश्यवो वैरिणन्तथा ।

दूरादेव पलायन्ते,

नवस्मग्गधारिणाम् ॥ ७ ॥

घोरासु सर्वबाधासु, वेदनासु तथैव च ।
एतस्य पठनादेव, सद्यो मुच्येत संकटात् ८

इनके प्रभाव से सिंह आदि भयंकर प्राणी, चोर-डाकू तथा शत्रु लोग दूर से ही भाग जाते हैं । नवस्मरण धारियों का ये अणु-मात्र भी अपकार नहीं कर सकते । सभी प्रकार के भयंकर दुःखों में, सभी प्रकार की वेदनाओं में नवस्मरण के पाठ मात्र से ही मनुष्य, उनसे तत्काल मुक्त हो जाते हैं ॥ ७-८ ॥

पिशाचाद्युपसर्गाश्च,

ग्रहपीडाश्च दारुणाः ।

पाठश्रवणमात्रेण,

विनश्यन्ति नृणां ध्रुवम् ॥ ९ ॥

भूत-पिशाच आदि का उपसर्ग और
 भयङ्कर ग्रहपीडा, इस नवमरण के पाठ के
 श्रवण मात्र से अथशयमेव नष्ट हो जाती
 है ॥ ६ ॥

कायिक वाचिक पाप,

मानस चापि दुष्कृतम् ।

दुष्कृतोत्था विपत्तिश्च,

क्षय यान्ति न सशयः ॥ १० ॥

मानसिक, वाचिक और कायिक पाप
 तथा पापजनित विपत्तियां, इसके पाठ करने से
 तथा श्रवण मात्र से निस्संशय नष्ट हो जाती
 है ॥ १० ॥

युद्धेषु विजयप्राप्तिः,

काननं नन्दनं वनम् ।

दुःस्वप्नश्चापि सुखप्नो,

भवत्यस्य प्रभावतः ॥ ११ ॥

इस नवस्मरण के प्रभाव से युद्ध में विजय प्राप्त होता है, भयङ्कर वन भी नन्दनवन ही जाता है और दुःस्वप्न भी सुखप्न हो जाता है ॥ ११ ॥

राजद्वारे तथा युद्धे,

सभायां शत्रुसंकटे ।

उत्पाते च विवादे च,

विजयं लभते ध्रुवम् ॥ १२ ॥

राजद्वार में, युद्ध में, सभा में, शत्रुजनित विपत्तियों में, प्रहादिजनित उत्पात में और विवाद में, इस नम्र स्मरण के प्रभाव से, मनुष्यों को अवश्यमेव विजय प्राप्त होता है ॥१२॥

कान्तारे च महारण्ये,
 प्रान्तरे ढवसकुले ।
 स्थितश्च शत्रुभिश्चैव,
 गृहीतस्तस्करैस्तथा ॥ १३ ॥

द्वयाग्नि से प्रज्वलित वन, अटयी और प्रातर [दूर तक शून्य मार्ग] में भी इसके स्मरण मात्र से रक्षा होती है, शत्रुओं और चोरों के उपद्रव से मनुष्य इसके स्मरण मात्र से मुक्त हो जाते हैं ॥१३॥

वृश्चिकैर्भुजगैश्चैव,

सूकरैः कोण्डुभिस्तथा ।

सिंहव्याघ्रैः समाक्रान्तो,

वने वाऽरण्यहस्तिभिः ॥१४॥

वन में वृश्चिक (विच्छू) सर्प, शूकर, शृगाल, सिंह, व्याघ्र और जङ्गली हाथी जिनका पीछा कर रहे हैं ऐसे मनुष्य. इन हिंसक प्राणियों के सङ्कट से इसके स्मरण मात्र से मुक्त हो जाते हैं ॥ १४ ॥

आधूर्णितो महावातैः,

स्थितः पीते महार्णवे ।

राजाऽऽज्ञप्तो वधस्थानं,
नीतः कारागृहेऽपि वा ॥१५॥

महासमुद्र में जो जहाज पर बैठे हुए हैं,
और जिनका वह जहाज भयङ्कर आधी से
दूध रहा है ऐसे मनुष्य इसके स्मरण से उस
आपत्ति से छूट जाते हैं। तथा जो राजा की
आज्ञा से वध-स्थान में लागे गये हैं, जो जेल
में रक्खे गये हैं, वहा भी इसके स्मरण से
रक्षा होती है ॥ १५ ॥

पतत्सु चापि शस्त्रेषु,
मंग्रामे दारुणे तथा ।
अस्य स्मरणमात्रेण,
मंकटान्मुच्यते नरः ॥ १६ ॥

तथा संप्राम में भयङ्कर शस्त्र वर्षा के बीच में रहे हुए मनुष्य भी इसके स्मरण मात्र से, उस सङ्कट से मुक्त हो जाते हैं ॥ १६ ॥

अशेषानुपसर्गाश्च,

महामारीकृतानपि ।

रोगातङ्कभयं चैव,

समस्तं शमयेद् द्रुतम् ॥१७॥

शत्रुओं और ग्रहों से जनित समस्त उपसर्गों को, और महामारीकृत उपसर्गों को, एवं रोग और आतङ्क से उत्पन्न समस्त भयों को यह स्तोत्र शीघ्र ही शान्त कर देता है ॥ १७ ॥

उन्मादश्चित्तविक्षेपो,

मूर्च्छाश्चपस्मार एव च ।

सद्यश्चेते निवर्तन्ते,

सर्वे स्मरणमात्रतः ॥१८॥

उन्माद, चित्तविक्षेप, मूर्च्छा, अपस्मार,
(मीर्गी) ये सभी रोग इसके स्मरण मात्र से
तत्काल ही निवृत्त हो जाते हैं ॥ १८ ॥

सर्वं पापप्रशमनं,

सर्वसिद्धिविधायकम् ।

य इदं जीर्णयेत् स्तोत्रं,

स सुखी सर्वदा भवेत् ॥१९॥

सभी पापों को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले इस स्तोत्र का जो पाठ करता है वह सर्वदा सुखी होता है ॥ १६ ॥

अभीष्टं प्राप्नुयात् सर्वं,
धनार्थी धनसंपदम् ।

अस्य प्रभावात् प्राप्नोति,

सुखं चात्र परत्र च ॥ २० ॥

इस स्तोत्र को पढ़ने वाला अपने सभी अभीष्टों (अभिलषित वस्तुओं) को प्राप्त करता है धनार्थी धन पाता है । अधिक कृपा कहा जाय, इसके प्रभाव से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख पाता है ॥ २० ॥

यद्गृहे लिखितं स्तोत्र,
 भय तस्य न जायते ।
 तत्रैव सकला सपत् ,
 स्थिरा भवति सर्वदा ॥ २१ ॥

जिसके घर में हस्तलिखित यह स्तोत्र
 रहता है उसे भय नहीं होता है, और उस घर
 में सभी प्रकार की सम्पत्तियाँ सर्वदा स्थिर
 रहती हैं ॥ २१ ॥

मोक्षप्रदं मुमुक्षूणा,
 दग्धिद्राणा निधिप्रदम् ।

स्तोत्रमेतद् व्याधिहरं.

ग्रहाणा शातिकाकम् ॥२२॥

यह स्तोत्र मोक्षामिताषियों को मोक्ष देता है, दरिद्रों को निधि देता है, व्याधियों को दूर करता है और अशुभ ग्रहों को शान्त करता है ॥ २२ ॥

भेदे राज्ञः प्रजानां च,
दम्पत्योः प्रीतिभेदने ।

गुरौ शिष्ये च संघेषु,

मैत्रीकरणमुत्तमम् ॥ २३ ॥

यह स्तोत्र राजा और प्रजा के बीच के मतभेद को, दम्पति के प्रीतिभेद को, गुरु शिष्य के वैमनस्य को दूर करता है और सब में श्रद्धा मैत्रीभाव स्थापित करता है ॥ २३ ॥

मानोन्नतिर्भवेत्लोके.

यशसा परिवर्धते ।

आधिपत्यं च लभते,

सर्वदा स्तोत्रपाठकः ॥२४॥

इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने वाला सर्वत्र मन्मान पाता है, मंत्र उसके यश की प्राप्ति होती है, वह उत्तम आधिपत्य को प्राप्त करता है ॥ २४ ॥

एतन्प्रभावाद् भव्याना,

सर्वसौख्यपरम्परा ।

तथा तिष्ठति मेदिन्या,

पुत्रपात्रादिमनुति ॥ २५ ॥

इस स्तोत्र के प्रभाव से भव्यों को सौख्य परम्परा प्राप्त होती है, तथा इस स्तोत्र के पढ़ने वाले भव्यों की पुत्र-पौत्रादि सन्तति परम्परा सुख से रहती है ॥ २५ ॥

इहलोके सुखं सिद्धिं,

मङ्गलं सर्वसंपदः ।

प्राप्य जीवः परभवे,

मोक्षं वा स्वर्गमाप्नुयात् ॥ २६ ॥

इसके स्मरण से जीव इस लोक में सुख सिद्धि, मङ्गल और सभी सम्पदाओं को प्राप्त कर परभव में मोक्ष अथवा देवलोक पाता है ॥ २६ ॥

॥ इति नवस्मरणमाहात्म्य ॥

१- नमस्काररूप प्रथम मङ्गलस्मरण

(१) नमो अरिहंताणां, (२) नमो सिद्धाणां, (३) नमो आर्यग्याणां, (४) नमो उवज्झायाणां, (५) नमो लोए सव्वमाहूणां ।

१ श्री अरिहन्त भगवान को नमस्कार हो । २ श्री सिद्ध भगवान को नमस्कार हो । ३ आचार्य को नमस्कार हो । ४ उपाध्याय को नमस्कार हो । ५ लोक में वर्तमान सर्व साधु-मुनिराज को नमस्कार हो ।

एसो पंचनमुक्कागे,

सव्वपावप्पणामणा ।

मंगलाणां च सव्वेसि,

पढमं हबइ मंगलं ॥ १ ॥

यह पच नमस्कार सभी पापों का नाशक है, और सभी मङ्गलों में प्रधान मङ्गल है ॥१॥

चारित्रेषु यथाख्यातं, जयेषुकर्मणां जयः
परमेष्ठिनमस्कारस्तथा मंत्रेषु विद्यते ॥१॥

जैसे चारित्रों में यथाख्यात चारित्र और जयों में कर्मजय मुख्य हैं, वैसे ही मन्त्रों में पच परमेष्ठिनमस्कार मन्त्र मुख्य है ॥१॥

गोत्रेषु तीर्थकृद्गोत्रं,

यथा गन्धेषु चन्दनम् ।

परमेष्ठिनमस्कार,
स्तथा मंत्रेषु विद्यते ॥ २ ॥

जैसे गोत्रों में तीर्थद्वार गोत्र भ्रष्ट है
गन्धों में चन्दन भ्रष्ट है, वैसे ही मन्त्रों में,
पञ्चपरमेष्ठी-नमस्कार भ्रष्ट है ॥ २ ॥

एव पञ्चनमस्कारः,
सर्वपापप्रणाशनः ।
एतादृशो जगत्यस्मिन् ,
मन्त्र कोऽपि न विद्यते ॥ ३ ॥

यह पञ्च नमस्कार सभी पापों का विनाश
कर दे । इस जगत् में हमारे समान दूसरा
कोई मन्त्र नहीं है ॥ ३ ॥

यशःकीर्तिं बलं लक्ष्मीं,
 त्रिविधं च महोत्सवम् ।
 नवं नवं प्रमोदं च,
 लभते नात्र संशयः ॥ ४ ॥

इस मन्त्र को जपने वाले भक्तियों को यश, कीर्ति, बल, लक्ष्मी, अनेक प्रकार के महोत्सव और नवीन २ आनन्द निस्सन्देह प्राप्त होते हैं ॥४॥

नवलक्षजपादस्य,
 षट्षष्टिलक्षयोनिकाः ।
 क्षपयेन्मानवः शुद्ध,
 स्ततो याति परां गतिम् ॥ ५ ॥

इस नमस्कार मंत्र के नौ लाग्य जाप
जपने से मनुष्य त्रियामठ लाव योनियों को
ग्रहा नर शुद्ध हो जाता है, और परम गति की
प्राप्त करना है ॥ ५ ॥

अष्टकोत्त्रष्टलक्षणि,

सहस्राष्टकमेव च ।

अष्टोत्तरं चाष्टशत,

जपित्वा तार्थकृद् भवेत् ॥ ६ ॥

आठ करोड़, आठ लाख, आठ हजार,
आठ सौ आठ (८८८८८८८८) बार जप करके
मनुष्य तीर्थहर गोत्र य धना है ॥ ६ ॥

एनं संस्मृत्य भावेन,
 यत्र यत्रैव गच्छति ।
 तत्र तत्र भवेत् सिद्धिः,
 सर्वाभीष्ट पदार्थगा ॥ ७ ॥

इस नमस्कार मन्त्र को भावपूर्वक स्मरण करके मनुष्य, जहां २ जाता है वहां २ उसके सभी अभिलषित वस्तुओं की सिद्धि होती है ॥७॥

॥इति नमस्कार रूप मङ्गल स्मरण ॥



२- श्री वद्धमानभक्तामरस्तोत्रम् आनन्द स्मरण—

भक्तामरप्रवर-मौलि- मणि - ब्रजेषु,
ज्योति-प्रभूत-सलिलेषु सरोवरेषु ।
चेतोलि- मजु-विक्रसत्कमलायमान,
श्री-वद्धमान-चरण शरण ब्रजामि॥१

भक्ति के उत्कृष्ट भाव से नमस्कार करने के लिए झुके हुए देवों के मस्तकों के मुकुटों में जड़े हुए मणियों के समूहरूपी सरोवर हैं, उन मणिरूपी सरोवरों में मणियों की ज्योतिस्व जल भरा हुआ है। उनमें प्रभु के चरण पद वर्ण कमलवन के संभान शोभित हो रहे हैं और ये भव्य जीवों के मनरूपी भ्रमरों की

आकृष्ट कर रहे हैं, ऐसे श्री महावीर स्वामी के चरणों का शरण लेता हूँ ॥१॥

आनन्द-नन्दन-वनं सवनं सुखानां,
सद्भावनं शिव-पदस्य परं निदानम् ।
संसार-पार-करणां करणां गुणानां,
नाथ ! त्वदीय-चरणां शरणां प्रपद्ये ॥२

हे नाथ ! आपके चरण, आनन्द के नन्दनवन हैं, सद्भाव उत्पन्न करने वाले और मोक्षपद देने वाले हैं, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और समग्नानादि अनेक गुणों के भंडार हैं । हे नाथ ! आपके शरणागत-वत्सल इन चरणों का शरण मैं लेता हूँ ॥२॥
सिद्धौषधं सकल-सिद्धि-पदं समृद्धम्,
शुद्धं विशुद्ध-सुखदं च गुणैःसमिद्धम् ।

ज्ञानपद शरणं विगता-व-वृन्द,
 व्यानास्पदं शिवपदं शिवपदं प्रणौमि ॥३॥

हे प्रभु ! आपके चरण, कर्मरूपी रोग के लिए मित्र औषध है, शुद्ध है अव्यावाय आत्मिक सुखादि को देने वाले है, शुभ लक्षण रूप गुणों से उज्ज्वल है, ज्ञान एवं अभय के दाता और विद्वानों के दूर करने वाले है, ऐसे ज्ञान के आधारभूत कल्याणप्रद आपके महल-मय चरणों को मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

बालो विवेक विकलो निज-बाल-भावा-
 दाकाश-मान-मपि कर्तुमिव प्रवृत्त ।
 जाना-अनन्त-गुण-वर्गान् कर्तु-काम
 काम भवामि करुणाकर ! ते पुग्न्तान् ॥४॥

जैसे विवेकज्ञान से रहित बालक अपने बाल भाव के कारण क्रूढ़ता हुआ आकाश को भी मापने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु ! आपके आगे आपके ज्ञानादि अनन्त गुणों के गान करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ । हे करुणाकर ! मेरी इस धृष्टता को आप क्षमा करना ॥ ४ ॥

स्पर्शो मणिर्नयति चेन्निज-संनिधानात्-
लोहं हिरण्य-पदवी-मिति नात्र चित्रम्,
किन्तु त्वदीय-मनुचिन्तन-मेव दूरात्,
साम्भ्यं तनोति तवसिद्धिपदे स्थितस्य ॥५

पारसमणि तो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बनाता है परन्तु उस लोहे को पारस-मणि नहीं बना सकता, परन्तु हे प्रभु ! आप

तो बहुत दूर (मोक्ष में) होते हुए भी आपके ध्यान मात्र से जीव आपके समान हो जाता है यह अवश्य आश्चर्य है ॥ ५ ॥

कुन्देन्दु-हार-रमणीय-गुणान् जिनेन्द्र !,
वक्तु न पारयति कोपि कदापि लोके
क.स्यात् समस्त भुवन स्थित-जीव राशे,
रेकैक-जीवगणनाकरणे समर्थ. ? ॥६॥

हे प्रभु ! जैसे समस्त लोक के अनन्त जीव राशि की, एक एक जीव करके गणना करने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार आपके कुन्द पुष्प के समान उज्ज्वल, चन्द्र के समान निर्मल, और मोतियों के हार के समान स्वच्छ गुणों के वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ६ ॥

शक्त्या विनापि मुनिनाथ ! भवद्गुणानां
 गाने समुद्यत-मतिर्नहि लज्जितोऽस्मि ।
 मार्गेण येन गरुडस्य गतिः प्रसिद्धा,
 तेनैव किं न विहगस्य शिशुः प्रयाति ? ॥७

हे मुनिनाथ ! आपके गुणों के वर्णन करने में
 मैं समर्थ नहीं हूँ, तो भी इसके लिए उद्यत हो रहा
 हूँ, इसमें मुझे लज्जा नहीं है क्योंकि जिस
 मार्ग से पक्षिराज गरुड़ उड़ता है उस मार्ग से
 क्या पक्षी का बच्चा नहीं उड़ता ? अर्थात् उसी
 मार्ग से उड़ता है ॥ ७ ॥

त्वद्वाक्सुधासुरुचिरेव विभो ! बलान्मां,
 वक्तुं प्रवर्त्तयति नाथ ! भवद्गुणानाम् ।

यद् वदते जलनिविस्तरलैस्तरगो-
स्तत्रास्ति चन्द्रकिरणाद्य एव हेतु ॥८॥

जैसे पूर्णिमा के दिन उगते हुए चन्द्रमा की किरणों के प्रभाव से समुद्र की चञ्चल तरंगें उद्भूत होने लगती हैं, उसी प्रकार, हे प्रभु ! आपकी अमृतमयी वाणी, आपके ज्ञानादि गुणों के वर्णन करने के लिए मुझे, बलपत्रक प्रेरित करती हैं ॥ ८ ॥

अज्ञान-मोह-निकर भगवन् ! हृदिस्थ,
हृत्प्रभु प्रवचन भवदीयमेव ।
गाढं स्थिरं चिरतरं निमिरं दरीम्य,
हृत्प्रभु सुसुचिरा रुचिरेव नान्यत् ॥९॥

जैसे बहुत काल से गुफा में स्थित अन्धकार को दूर करने के लिए मणि के प्रकाश के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है, उसी प्रकार हे भगवन् ? अनादिकाल से हृदय में स्थित अज्ञान और मोह के समूहरूप आवरण जनित गाढ़ अन्धकार को दूर करने में आपके प्रवचनरूपी प्रकाश ही एक समर्थ है ॥६॥

वाक्यं प्रमाण-नय-रीति-गुणै-र्विहीनं,
निभूषणं यदपि बोधिद ! मामकीनम् ।
स्यादेव देव-नर-लोक-हिताय युष्मत्-
संगाद् यथा भवति शुक्ति-गतोदबिन्दुः ॥१०॥

हे बोधिदाता भगवन्, मेरी वाणी यद्यपि प्रमाण, नय, काव्यरीति और काव्यगुणों से

रहित होने के कारण अलकार रहित है तो भी उस वाणी का प्रयोग मैंने आपकी स्तुति के निमित्त किया है, अनन्तर वह देव और मनुष्य आदि सभी प्राणियों के लिए अग्रथ्य हित-कारक बनेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, जैसे हि स्थाति नमत्र मे तुच्छ भी पानी की धून्द सीप मे पडनेसे गोनी बन जाती है ॥१०॥

श्राम्ता तव स्तुति-कथा मनसो-प्यगम्या,
नामापि ते त्वयि पर कुरुते-नुगगम् ।
जम्ब्राग-मस्तु खलु दूरतरेपि देव !
नामापि तस्य कुरुते रसना रसालाम् ॥११

हे प्रभु ! जैसे दूर पडा हुआ भी नीचू मात्र स्मरण करने से मुझ में पानी लाता है और

अपने रस का स्वाद कराता है, उसी प्रकार आपके कल्याणकारी नाम का जप करने वाले के हृदय में, आपके नाम का उच्चारण आपके अपूर्व महिमायुक्त गुणों के प्रति भक्तिभाव का रस उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥

नाना-मणि-प्रचुर-कांचन-रत्न-रम्यं,
स्वीयं प्रयच्छति पदं जनकः सुताय ।
त्वद्-ध्यान-मेव जिनदेव ! पदं त्वदीयं,
भव्याय नित्य-सुखदं प्रकटा-करोति ॥१२॥

पिता अपने पुत्र को मणि, रत्न और सुवर्ण आदि मूल्यवान धन सम्पत्ति से युक्त अपना पद देता है अर्थात् अपना अधिकारी बनाता है, परन्तु हे जिनेश्वर ! आपका ध्यान ही भव्य

जीवों को नित्य सुखदाई अविनाशी मोक्षपद
 देता है जोकि अविनाशर होने के कारण
 शाश्वत है । अतएव हे भगवन ! पिता के द्वारा
 दी गई सम्पत्ति की अपेक्षा आपके ध्यान के
 द्वारा दी गई सम्पत्ति अनन्तगुण बहुमूल्य
 है ॥ १० ॥

ज्ञानाद्यनन्त-गुण-गौर्वपूर्ण-सिन्धुं,
 वन्द्यु भवन्त-मपहाय पर क इच्छेत् ? ।
 प्राज्य प्रलम्ब्य भुवन-त्रितयस्य राज्यं,
 कः कामयेत किल किकरता-मबुद्धिः ॥१३॥

हे प्रभु ! आप ज्ञानादि अनन्त गुणों के
 समुद्र हैं, ससार के अशरण जीवों के शरण-
 रूप हैं । दया के सिन्धु हैं, जगत के निष्कारण
 बन्धु हैं, ऐसे आपकी छोड़ कर दूसरे को

चाहना कौन करे ? क्योंकि कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो त्रिभुवन का राज्य मिलने पर भी उसको छोड़ कर दासता की इच्छा करे ? अर्थात् कोई भी इच्छा नहीं कर सकता है ॥१३

त्वद्-गात्रता-परिणताः परमाणवोपि,
सर्वोत्तमा निरुपमाः सुषमा भवन्ति ।
लब्ध्वा शरण्य ! शरणां चरणां जनास्ते,
सिद्धा भवेयुरिति नाथ ! किमत्र चित्रम्
॥१४॥

हे जिनेन्द्र ! आपके शरीररूप में परिणित हुए जड़ परमाणु भी सुन्दर एवम् सर्वोत्तम शोभाशाली बन जाते हैं, तो फिर हे प्रभु ! कोई पुरुष आपके चरणों का शरण गढ़ कर

सिद्ध पद को प्राप्त करे उसमें क्या आश्चर्य
॥ १४ ॥

कश्चण्डकौशिक-समंभव-सिन्धुपारं,
नेता सुदर्शन-समं च जगत्त्रयेपि ।
हे नाथ ! तत् कथय ते चरणाम्बुजस्य,
येनोपमा गुणलवेन घटेत लोके ॥१५॥

विषय विष वाले, दृष्टिविष चण्डकौशिक
सर्व जैसे अधम को, और सुदर्शनसेठ जैसे
शीलवान् उत्तम पुरुष के भेदभाव बिना सम-
रूप से मरसिन्धु पार कराने वाला आपके
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । तो फिर हे
नाथ ! आप ही कहे कि आपके चरण कमली
की उपमा किस वस्तु से दी जाय ? ॥१५॥

लोकोत्तरं सकलमंगल-मोद-कन्दं,
 स्यन्दं वचो-मृत रसस्य जग त्यमन्दम् ।
 स्वर्गां-पवर्गा-सुखदं भव-दास्य-चन्दं,
 दृष्ट्वामुदं भजति भव्य चक्रोर-वृन्दम् ॥१६॥

हे प्रभु ! सभी लोकों में उत्तम तथा सभी प्रकार से मङ्गलकारी और आनन्ददायक ऐसा आपका मुखरूपी चन्द्र मण्डल कि जिसमें से आनन्द मङ्गल के धाम समवरण में देशना रूपी अमृत रस का भरना भरता है । देवलोक और मोक्ष के सुख को देने वाले ऐसे आपके मुख चन्द्र को देख कर चक्रोर पक्षीरूपी भव्य जीव सर्वदा आनन्दमग्न होते हैं । ॥१६॥

भ्रान्त्यापि भद्र-मुद्रित भवदीय नाम,
 मिद्ध-विवायि भगवन् ! सुकृतानि सूतां ।
 अज्ञानतोपि पतित सितखड-खडम्,
 घत्ते मुखे मधुरिमाण-मखड-मेव ॥१७॥

जैसे अनजान में भी मुह में पडा मिठरी
 का टुसडा अराड मिटास को देता है अर्थात्
 सम्पूर्ण मुह को मीठा बना देता है, उसी
 प्रकार हे प्रभु । कल्याणकारी आपके नाम का
 उच्चारण यदि कोई भूल से भी करे तो वह
 पुत्र सम्पत्ति और पुण्य को न्यून करता है,
 इसमें सन्देह की कोई समायना नहीं ॥ १७ ॥

यो मस्तक नमयते जिन ! तं धिपद्मे
 सर्वद्वि-सिद्धि-निचयः श्रयते तमेव ।

तीर्थकरः शुभकरः प्रविभूय मोयं,

स्थानं प्रयातिपरमं ध्रुव-नित्य शुद्धम् ॥१८॥

हे प्रभु ! जो जीव नतमस्तक होकर आपके चरणकमलों में नमस्कार करता है उसको इस जगत में सभी प्रकार की ऋद्धि सिद्धि मिलती है । इतना ही नहीं बल्कि नमस्कार करने वाला जीव, उस नमस्कार के फलस्वरूप पुण्य के उदय से क्रमशः तीर्थद्वार होकर जगत् कल्याण करने वाला हो जाता है और शाश्वत मोक्ष पद को प्राप्त करता है ॥१८॥

पृच्छामि नाव-मधुना मुनिनाथ ! नित्यं,
प्राप्ता त्वया तरणतारणता हि कस्मात् ?!

सा नोत्तर वितनुते त्वमपि प्रयात—,
 स्तद् ब्रूहि कोस्ति परितोप कस्तृतीयः
 ॥१६॥

हे मुनिनाथ ! मैं इस नौका को जित्य पूञ्जता
 हूँ कि हे नाव ! यह तरने और तारने की कला
 तूने कहा से सीखी ? परन्तु नौका तो कुछ
 उत्तर देती नहीं और आप भी निर्वाण प्राप्त
 कर सिद्धगति में विरान रहे हैं, तो हे प्रभु !
 आप ही कहो कि इस प्रश्न का सन्तोषकारक
 उत्तर देने वाला तीसरा कौन है ? अर्थात्
 सुगुरु के अतिरिक्त कोई भी उत्तर देने में
 कोई भी समर्थ नहीं है ।

पीशूपमत्र निज जीवन-सार-हेतु,
 पीत्रानुवन्ति मनुजागतनमात्ररक्षाय ।

स्याद्वाद-सुन्दर-रुचं भवतस्तु वाचं,
पीत्वा प्रयान्ति सुतरा-मजरा मरत्वम् ॥२०

हे नाथ ! इस लोक में मनुष्य यदि अमृत-रस
का पान करता है तो वह उसके प्रभाव से
निश्चय दीर्घजीविता को प्राप्त करता है,
जिसका कोई महत्त्व नहीं ! परन्तु जो भव्य
आपकी अमृतमयी स्याद्वाद वाणी के रस का
पान करता है वह तो सहज में ही अजर, अमर
सोक्ष्मपद को प्राप्त करता है ॥ २० ॥

चक्री यथा विपुल-चक्र-बला-दखंडं,
भूमंडलं प्रभुतया समलं-करोति ।
रत्नत्रयेण मुनिनाथ ! तथा पृथिव्यां,
जैनेन्द्र-शासन-परान् भविनो विधत्से ॥२१॥

जैसे चक्रवर्ती अपने प्रान अत्र चक्र रत्न के द्वारा न्त्र खण्डों को जीत कर उन पर अधिपत्य स्थापित करता है उसी प्रकार हे मुनिनाथ ! आप भी अपने सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चात्रिरूप रत्नत्रयरूपी चक्र के प्रभाव से मिथ्यात्व को दूर कर भव्य जीवों को जैन शासन के वशवर्ती बनाते हैं ॥ २१ ॥

कालस्य मान-मखिल शशि भास्कराम्या,
पक्ष-द्वयेन गगने गमन खगानाम् ।
तद्वद् भवानपि भवाद् भगवन् । जनाना,
ज्ञानक्रियोभयवशादिहमुक्तिमाहः ॥२२॥

जैसे दिन रात्रिरूपी काल का मान इस जगह में चन्द्र और सूर्य से होता है, जैसे

पक्षियों का आकाश में गमन दोनों पांखों से होता है, उसी प्रकार हे भगवान् ! आपने इस संसार से जीवों की मुक्ति का उपाय, ज्ञान और क्रिया इन दोनों को कहा है ॥ २२ ॥

अनादिकं हृदि-गतं विषमं विषाक्तम् ,
 संसार-कानन-परिभ्रमैक हेतुम् ।
 मिथ्यात्व-दोष-मखिलं मलिनस्वरूप,
 क्षिप्रं प्रणाशयति ते विमलः प्रभावः ॥ २३ ॥

हे प्रभु ! यह मिथ्यात्व दोष, जोकि अनादि है, प्राणियों के हृदय के भीतर जिसका निवास है, जो विषम अर्थात् भयङ्कर है, राग द्वेषादि रूप महाविषयों से जो भावित है, संसाररूपी भयानक अटवी में जिसके कारण जीव निरन्तर परिभ्रमण कर रहे हैं और जिसका स्वरूप स्व-

मात्रत भलिन है, ऐसे इस मिथ्यात्व दोष को
 आपका निर्मल प्रभाव क्षणमात्र में समूल नष्ट
 कर देता है ॥ २३ ॥

प्रमादिका विषय-मोह-वश गता ये,
 कर्तव्यमार्गविमुखाः कुमतिप्रसङ्गाः ।

अज्ञानिनो विषय-घूर्णित-मानसाश्च,
 सन्मार्गमानयन्ति-तान् भवत प्रभावः ॥२॥

हे नाथ । इस ससार में जो जीव प्रमादी,
 विषयी, मोह के वशीभूत होने से कर्तव्य
 विमुख होकर जीवन व्यतीत करते हैं, पापियों
 की सङ्घति से जो उन्मार्गगामी हो गये हैं,
 जिन्हें ज्ञान का लेश भी नहीं है, जिनका मन
 विषयरूपी मुरापात से घूम रहा है, ऐसे जीवों

की समानता चिन्तामणि आदि कभी नहीं कर सकते ! आप तो अनुपम हैं ॥ २६ ॥

ध्वान्तं न याति निकटे रवि-मंडलस्य,
चिन्तामणेश्च सविधे खलु दुःखलेशः ।
रागादि-दोष-निचया भगवं-स्तथैव,
नो यान्ति किञ्चिदपि देव ! भवत्समीपे ॥२॥

जैसे सूर्यमण्डल के समीप अंधकार नहीं जा सकता, चिन्तामणि के समीप दुःख का अंश मात्र भी नहीं जा सकता, उसी प्रकार हे भगवान् ! राग-द्वेष आदि अठारह दोषों में से एक भी दोष आपके पास नहीं आ सकता

शीताशुमडल-जला-मृत-फेनपु ज,
 प्रोत्फुल्लितेप्सितसुपुष्पविशालकुजम् ।
 धर्म निरूप्य परम खलु दुःखभज,
 नित्यविकासयसिभव्यद ! भव्यकजम् ॥२८

हे प्रभु ! आग्ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वह तो निश्चय ही सकल दुःखों का नाशक है, चन्द्र मण्डल, जल, अमृत और फेन पुञ्ज के समान निर्मल और शान्तिप्रद है, मनोरथ-रूप मनोहर पुष्पों का विशाल लता मडण्ड है। ऐसे परम मनोहर धर्म का भव्यों के हितार्थ प्ररूपण किया है : तथा हे कल्याणकारक ! आप मूर्त्य के समान भव्यरूपी कमलों को नित्य प्रफुल्लित करते हैं, उमी कारण उनके उदय-

कोशस्थित सद्भावरूपी सुवास से समस्त
दिङ्मण्डल सुगन्धित होरहा है ॥ २८ ॥

दूरस्थितोपि सितरश्मिरत्नं स्वकीयैः,
शुभ्रैर्विकासिकिरणैःसुविकासभावम् ।
अन्तर्गतं वितनुते किल कैरवाणां,
तद्वद्वजिनेन्द्र ! गुणराशिरयं जनानाम् । २९

जैसे दूर में रहा हुआ चन्द्रमा अपनी
किरणों के प्रभाव से, सरोवरों में उगे हुए
कैरव-समूह (रात्रि विकासी कमलों) के अंत-
स्तल को विकसित करता है उसी प्रकार हे
जिनेन्द्र ! आप भी अपने उज्ज्वल गुणों के
प्रभाव से भव्यजनों के हृदयरूपी कमलों को
विकसित करता हैं, अर्थात् आपके अनुपम

गुण के महात्म्य श्रवण से मन्व्यों का हृदय
आनन्दित हो जाता है ॥ २९ ॥

शीताशु-रश्मि निकर प्रसरा नुपगाद्,
यच्चन्द्रकान्त-मणाय परित इवन्ति ।
तद्-वत्-त्वदीय महिम श्रवणेनभव्याः,
शान्ताः प्रवृद्धकरुणा द्रविता भवन्ति ॥ ३० ॥

हे प्रभु । जैसे चन्द्रमा के शीतल किरणों की
प्रभा से पृथ्वी पर ही हुई चन्द्रकांत मणियां
द्रवित होती हैं अर्थात् पिघलाती हैं उसी प्रकार
आपकी अनुपम महिमा के सुनने से, मन्व्यों के
हृदय में मेरे दया और अहिंसा का फलना फलने
लगता है ॥ ३० ॥

दुःख-प्रधान-शिद-वर्जित-हीयमाने,
 काले सदा विषय-जाल-महा-कराले ।
 भव्या भवत्प्रवचनं शिवदं जिनेन्द्र !
 पीत्रात्मशान्तिभुपयान्तिनितान्तशुद्धाम्

॥३१॥

हे प्रभु ! अब सर्पिणी के इस विषम पंचम काल में जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते । इस काल में दुःख के भाव बढ़ रहे हैं, आयु और बल का हास हो रहा है, ऐसे इस दुष्पम पञ्चम आरा में भी भव्यजन, शिवसुख के देने वाले अमृत समान आपके वचन का अस्वाद न करके परम आत्म शान्ति को प्राप्त करते हैं ३१॥

षट्कायनाथ । मुनिनाथ । गुणाधिनाथ !
 देवाधिनाथ । भविनाथ । शुभैकनाथ । ।
 अस्मान् प्रबोधय जिनाधिप । दूरतोपि,
 किनोस्मितानि कुरुते कुमुदानिचन्द्रः ?

॥३२॥

हे षट्जीवनि कर्षों के नाथ । हे मुनिशर ।
 हे केवलज्ञान केवलदर्शन आदि अनन्त गुणों
 के धारक । हे देवाधिदेव । हे भव्यों के हित
 विधायक । हे जीवमात्र के कल्याणकारक
 जिनेन्द्र भगवान् । आप बहुत दूर सिद्धिस्थान
 में निराज रहे हैं, तो भी आप कृपा करके ज्ञान
 रस के प्रवाह से हमारे हृदयकमलों को प्रफु-
 ल्लित करें । यह हमारी प्रार्थना अनुचित नहीं
 है, क्योंकि दूर में रहा हुआ चन्द्रमा भी तो
 कुमुदों को विकसित करता है ॥ ३२ ॥

वृक्षोपि शाकरहितो भवदाश्रयेण,
जातस्ततः स यदशोक इति प्रसिद्धः ।
भव्याः पुनर्जिन ! भवच्चरणाश्रयेण,
किंनाम कर्मरहिता न भवन्त्यशोकाः ?

॥३३॥

हे प्रभु ! ककेलि नामक वृक्ष, आपके संसर्ग
से शोकरहित होकर जगत में अशोक नाम से
प्रसिद्ध हुआ, तो फिर हे नाथ ! भव्य जीव
आपके चरणों का आश्रय लेकर कर्मरहित हो
अशोक (शोकरहित) अवस्था को प्राप्त करें,
इसमें आश्चर्य ही क्या ? ॥ ३३ ॥

सिंहासने मणिमये परिभासमानं,
नाथं निरीक्ष्य किल सन्दिहते विधिज्ञाः ।

इन्दुः किमेष ? नहि यत्स कलकरकुः,
किं वा रविर्न स तु चडतरप्रकाशः? ॥३४॥

हे नाथ ! समधरसण में मणिरत्नजडित
मिहासन पर विराजमान तथा तज के पुञ्जरूप
आपको देख कर तत्र जिज्ञासु बुद्धिमान पुष्प
आपके स्वरूप के निर्णय में शङ्काशील होते हैं
और वे तर्क करते हैं क्या गे चन्द्रमा है ? नहीं,
क्योंकि चन्द्रमा तो कलकरयुक्त है, तो क्या गे
सूर्य है ? नहीं, क्योंकि मूर्य का ताप तो
अतिशय प्रचण्ड होता है परन्तु गे तो अतिशय
शीतल हैं ॥३४॥

पुञ्ज-स्त्वपा-मिति पुगनिरणायि पश्चाद्-
व्यक्ताकृति-स्तनुधरोय-मिति प्रवृत्तैः ।

भव्यैः पुमानिति पुनः प्रशम-स्वभावः,
कारुण्य राशि रिति वीरजिनःक्रमेण ॥३५॥

हे प्रभु ! इस प्रकार संशय करने के बाद, बुद्धिमान भव्य जनों ने आपके स्वरूप के विषय में प्रथम यह निर्णय किया कि यह कोई तेज पुञ्ज है। फिर कुछ आगे बढ़ कर आकार के स्पष्ट दर्शन से उन्हें यह विश्वास हुआ कि ये कोई देहधारी पुरुष है, और कुछ आगे जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये शान्त स्वभाव वाले कोई महान् पुरुष हैं। फिर अधिक समीप जाने पर उन्हें ज्ञान हुआ कि ये तो कोई दूसरे नहीं हैं किन्तु करुणा के सागर वीर जिनेश्वर भगवान् हैं ॥३५॥

देवै-रचित्त कुसुम-प्रकरस्य वृष्ट्या,
 दिङ्मण्डल सुगमित भवतोतिशेषात् ।
 स्याद्वाद्-चारु-रचना-वचना-वलीना,
 वृष्ट्या भवन्ति भवितु प्रशमे निमग्ना-
 ॥३६॥

समयसरण में है प्रभु । आपकी अतिशय महिमा से प्रेरित होकर देवगण अचित्त पुरो की वृष्टि करते हैं निममे दमो दिशागे (दिग्मण्डल) सुगमित हो जाती है, वाता-घरण नितान्त प्रशान्त हो जाता है, और फिर आपकी अनेकान्वय प्रशस्त दिव्य गायो की वृष्टि होनी है, उममे म यनीय शान्ति के सागर में निमग्न होकर अपूर्व आनन्द का अनुभव करने हैं ॥३६॥

लोकोत्तरा सकल-जीव वचो-विलासा,
 पीयूषवत्-परिणता भवदीय-भाषा ।
 सर्वर्द्धि-सिद्धि-गुणवृद्धि-विधान-दत्ता,
 साक्षात्तनोति कुशलं सकलं सुलक्षा ॥३७

हे भगवन् ! आपकी देशना समस्त जीवों की अपनी अपनी भाषा में परिणित हो जाती हैं। वह अमृत के समान मधुर और आकर्षक है, कल्याणकारिणी है, सिद्धि और शान्ति आदि अनुपम गुणरत्नों को देने वाली है, तथा सम्पूर्ण कुशल को देने वाली है ॥ ३७ ॥

गोक्षीर-नीर-शशि-कुन्द-तुषार-हार-
 शुक्लै-र्वियद्-विलसितैःशुभं-चामरौघैः ।

ध्यान सितं तव विभो । विनिवेद्यते यत्,
सर्वज्ञता तदनु कर्म-समूल-नाशः ॥३८॥

हे प्रभु ! गाय मा दूध, निर्मल जल, कुन्द
पुष्प, हिम (बरफ) और मोती के हार के
समान उज्ज्वल जो स्वच्छ चामर आपके ऊपर
ढोरे जा रहे हैं वे आपके शुक्ल ध्यान को
सूचित करते हैं और शुक्ल ध्यान से सर्वज्ञता
आती है, सर्वज्ञता से सकल कर्मों का नाश
होता है इन बातों के सूचक हैं ॥३८॥

आखडलै रवि-मडल-मागतै-स्तै-
भामडल तव नुत मुनिमडलैश्च ।
मोहा-न्वकार-परिहार कर-जीनेन्द्र,
तुल्य कथ भवति तद् रविमडलेन ॥३९॥

हैं नाथ । पृथ्वी पर देवलोक से उतर कर
 आये हुए इन्द्रगण और पृथ्वी पर रहने वाले
 मुनिगण आपके भामण्डल की स्तुति करते हैं
 और कहते हैं कि-हे जिनेन्द्र ! आपका या-
 मण्डल द्रव्य अन्धकार का विनाशक तो है ही
 परन्तु साथ में मोहरूपी भाव अन्धकार का भी
 विनाशक है, और सूर्य तो मात्र द्रव्यरूप अन्ध-
 कार का ही विनाशक है, अनएव आपके
 भामण्डल की तुलना सूर्य कभी नहीं कर
 सकता ? ॥ ३६ ॥

यत्कर्म-वृन्द सुभटं विकटं विजेता,
 लोकत्रय-प्रभु-रसा-वतिशेष-धारी ।
 तस्मा-ज्जिनेन्द्र-सरणिं शरणीकुरुध्वं,
 भव्या ! इति ध्वनति खेकिलदुन्दुभिस्ते ॥ ४०

हे नाथ । आपके अतिशय प्रभाव के कारण आकाश में जो टुटुमि नाद होता है, वह टुटुमि नाद निश्चय ही यह कहता है कि-हे मन्य जीवों ! उस विफट कर्म समूह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, तीन लोक के नाथ, चौतीस अतिशयो के धारक जिनेन्द्र भगवान् जो मार्ग बतलाते हैं उस मार्ग का अग्रलम्बन करो ॥४०॥

अत्युज्ज्वल विजित-शारद-चन्द्र-विम्ब,
समोदक सकल-मगल-मजु-कन्दम् ।
लत्रत्रय तत्र निवेदयते जिनेन्द्र !,
रत्नत्रय प्रभुपद शिवद ददाति ॥४१॥

हे जिनेन्द्र । समग्रसरण में आपके ऊपर जो उज्ज्वल तीन चक्र तने हुए हैं, जिसकी प्रभा

दिव्यं द्रभाव मवलोक्य सुरादयस्ते,
 पीयूष-सार-वचनानि निशम्य सम्यक् ।
 आनन्द - वारिधि- तरङ्ग-निमग्न-चित्ता-
 स्त्वद्-वर्णनाक्षमतया प्रणमन्ति भावात्
 ॥४४॥

हे प्रभु ! भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिपी
 और वैमानिक देव आदि, आपके दिव्य प्रभाव
 को देख कर, और आपकी असृतमयी वाणी
 को सुन कर आनन्द सागर की तरङ्गों में
 अपने चित्त को निमग्न कर देते हैं, और
 आपके अनुपम गुणों को वर्णन करने में अस-
 मर्थ हो, आन्तरिक भक्तिभाव के आवेश से
 आप ही द्वारम्बार नमस्कार करते हैं ॥४४॥

तुभ्य नमः सकल-सगल-कारकाय,
 तुभ्य नमः सकल-निवृत्ति-दायकाय
 तुभ्य नमः सकल-कर्म-विनाशकाय,
 तुभ्य नमः सकल-तत्त्व-निरूपकाय ॥४५

हे प्रभु ! समस्त मङ्गलों के कारक आपको नमस्कार हो, सभी प्रकार के सुख शान्ति देने वाले आपको नमस्कार हो, ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों के विनाशक आपको नमस्कार हो, और समस्त तत्त्वों के प्ररूपक आपको नमस्कार हो ॥४५॥

तुभ्य नमः सकल-जीव-दया पराय,
 तुभ्यं नमः शिवद-शामन-भास्कराय ।

तुभ्यं नमः सकल-लोक-शुभंकराय,
 तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय ॥४६॥

हैं भगवान् ! सकल लोकवर्ती जीवों को
 अभय देने वाले आपको नमस्कार हो, मोक्षपद
 को प्राप्त करने वाले और शासन के सूर्य
 समान आपको नमस्कार हो, प्राणिमात्र के हित
 कारक आपको नमस्कार हो । हे दयानिधि
 जिनेन्द्र आपको सर्वदा नमस्कार हो ॥४६॥

रक्तः-पिशाच-निकरै-रदयो-पसृष्टं,
 दुर्वृत्त-दुष्ट-खल-सृष्ट-विसृष्ट-मुष्टम् ।
 दारिद्र्य-दुःख-गद-जाल-विशाल-कष्टं,
 नष्टं भवत्यखिल - माशु भवस्प्रभावात्

हे नाथ ! राक्षस और पिशच के उपसर्ग
दुष्ट जनों की मूँठ दुःख दारिद्र्य नाना
प्रकार के रोग, शोक और भयङ्कर ऋष्ट आदि
सभी आपके प्रभाव में नष्ट हो जाते हैं ॥२७॥

चौरागि-मिह-गज-पन्नग-दुष्ट-दाव—,

हिस्रप्रचार-खल-वन्धन-दुर्ग-भूमौ ।

सर्वं भयं भयङ्करं प्रणिहन्ति नाथ ।

त्वद्दृष्ट्या न मात्रमस्मितं भुवनत्रयेऽस्मिन्

॥ ४८ ॥

चोर, शत्रु, मिह, टापी, सर्प, दावानल और
हिस्रक प्राणियों के संचार से, तथा दुष्ट मनु-
ष्यों के द्वारा होने वाले वन्धन के भय से जो
भूमि अत्यन्त दुर्गम है, ऐसी भूमि में भी हे

नाथ ! आपका ध्यान धरने से मनुष्य सभी प्रकार की विपत्तियों से उभर (बच) जाता है, क्योंकि आपका ध्यान सभी विपत्तियों को दूर भगा देता है । इसलिए आपका ध्यान त्रिभुवन में सर्व श्रेष्ठ है ॥ ४८ ॥

सिंहो-रग-प्रखर-सूकर-हिंस्रजालै—,
 व्योसा-टवी विकट-लुण्टक-कराट-नालैः ।
 सर्दत्तु-पुष्प-फल-पल्लव-शोभमाना,
 सा नन्दनं भवति ते स्मरणाजिनेन्द्र !
 ॥ ४९ ॥

हे जिनेन्द्र ! सिंह सर्प अत्यन्त तीखे दांत वाले सूकर तथा अन्य हिंसक प्राणियों के निवारा स्थान होने से विकराल, चोर, डाकू

आदि का निवासस्थान होने से मयानरु,
 और तीक्ष्ण काठों से व्याप्त होने के कारण
 अत्यन्त दुर्गम जो अट्टरी है वह भी, आपके
 स्मरण मात्र से सभी ऋतुओं के पत्र, पुष्प
 और फलों से सम्पन्न होकर नन्दन वन के
 समान ध्यानन्ददायक हो जाती है ॥ ४९ ॥

धोग-तिघोर-विकटे सुभटेऽतिकण्ठे,
 भ्रष्टे बले विविध दुःखशतैर्विशिष्टे ।
 शस्त्राहतिप्रविचलद्गुधिरप्रवृद्धे,
 युद्धे तनोति तवनाम विशुद्धशान्तिम्
 ॥ ५० ॥

हे प्रभु दोनों पक्षों के लिए महाकष्टकारी
 दारुण युद्ध जहां हो रहा है शत्रु के त्रास से
 और लुधा, पिपासा आदि से व्याकुल होकर
 सैनिक जहां से भाग रहे हैं, जहां पर शस्त्र के
 आघातसे आहत योद्धाओंके शरीरसे निरन्तर
 प्रबल शोणित प्रवाह वह रहा है, ऐसे घोर
 साम्राज्य में भी आपका नाम स्मरण भव्य जीवों
 को शांति देता है ॥ ५० ॥

सर्वर्द्धि-सिद्धि-मिदं परमं पवित्रं,
 स्तोत्रं च यः पठति वीर-जिनेश्वरस्य ।
 चिन्तामणिः सुरतरुः सकलार्थसिद्धिः,
 संसेवितुं तमनुकूलयितुं समेति ॥ ५१ ॥

श्री वीर जिनेश्वर भगवान के परम पवित्र सर्पदा ऋद्धि सिद्धि के देने वाले इम स्तोत्र को जो मनुष्य भक्तिभावपूर्वक पढ़ेगा उसकी प्रसन्नता के निमित्त, चिन्तामणिरत्न, दल्प वृक्ष और अनेक प्रकार की सिद्धिया उसकी सेवा में सर्वदा उपस्थित रहेगी, अर्थात् इस स्तोत्र के पढ़ने से इह लोक सम्बन्धी सभी सिद्धिया प्राप्त होती हैं और परम्परा से वह मोक्ष का भागी बनता है ॥ ५१ ॥

श्री-वर्द्धमान-शुभनाम-गुणा-नुवद्धा,
 शुद्धा विशुद्ध गुण-पुष्प-सुकीर्ति-गन्धाम्
 यो घासीलाल-रचिता स्तुति-मजु-माला,
 कठे विभर्ति खलु त समुपैति लक्ष्मीः ॥

॥ इति श्री जैनाचार्य - जैनधर्मदिवाकर-
 पूज्यश्री घासीलालजी महाराज विरचितं
 श्रीवर्द्धमान भक्तामरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

श्री वर्द्धमान प्रभु के शुभ नामरूपी सूत में
 उनके शुद्ध, निर्मल गुणरूपी फूलों को गूथ
 कर कीर्तिरूपी सुगन्धि से परिपूर्ण पूज्य श्री
 घांसीलालजी महाराज द्वारा रचित इस स्तुति
 रूपी सुन्दर माला को जो भव्य जीव अपने
 कण्ठ में धारण करेगा उसको त्रिभुवन की
 द्रव्य और भावलक्ष्मी स्वयं उपस्थित होकर
 वरेगी ॥ ५२ ॥

॥ इति श्री जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य
 श्री-घासीलालजी-महाराज-विरचित
 श्री-भक्तामर स्तोत्र का हिन्दी
 भाषानुवाद सम्पूर्ण ॥

(३) अथ सुखस्मरण

सुखमूल गणवरं, वर्धमानानुयायिनम् ।
द्वादशाङ्गधरं नित्यं, वन्दे त गौतमप्रभुम् ॥ १ ॥

श्री वर्धमान प्रभु के अनुयायी द्वादशाङ्ग
के धारक सुख के मूल श्री गौतमस्वामी को
नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

यस्य स्मरणमात्रेण, सर्वलब्धिः प्रजायते ।
ऋद्धिः सिद्धिः समृद्धिश्च, वन्दे त गौतम
॥ प्रभुम् ॥२॥

जिनके स्मरण मात्र से सभी प्रकार की
लब्धि ऋद्धि सिद्धि और समृद्धि मन्व्य जीवों
को मिलती है, उन महाप्रभावशाली श्री गौतम
स्वामी को नित्य नमस्कार करता हूँ ॥२॥

नेतारं सर्वसंघस्य, जेतारं कर्मवैरिणाम् ।
 त्रातारं सर्वजीवानां, वन्दे तं गौतमं
 प्रभुम् ॥३॥

समस्त सङ्घ के नेता कर्म शत्रुओं को
 जीतने वाले और सभी जीवों के रक्षक श्री
 गौतमस्वामी को नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

तनयं वसुभूतेश्च, पृथिव्या अङ्गजातकम् ।
 दिव्यज्योतिर्धरं दिव्य, - रूपलावण्य-
 संयुतम् ॥४॥

दिव्यसंहननंचैव दिव्यसंस्थानशोभितम् ।
 दिव्यर्द्धिं दिव्यलेश्यं च, वन्दे तं गौतमं
 प्रभुम् ॥५॥

वसुभूति के पुत्र पृथ्वीमाता के अङ्गजात
दिव्यज्योति के धारक दिव्यरूपलावण्य से
समुक्त, दिव्यसंज्ञनधारी, दिव्य सस्थान से
सुशोभित और दिव्य ऋद्धि पर दिव्य लेश्या-
वाले श्री गौतमस्वामी को मैं नमस्कार करता
हूँ ॥४-५॥

दिव्यप्रभावसपन्नं, दिव्यतेजः समर्चितम्
दिव्यलब्धिवर दिव्य, वन्दे त गौतम
प्रभुम् ॥६॥

दिव्य प्रभाव से सम्पन्न, दिव्य तेज से
युक्त, दिव्यलब्धिधारी ऐसे श्री गौतमस्वामी को
नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥

चतुर्ज्ञानवर शुद्ध, विद्याचरणपारगम् ।
धारक सर्वपूर्वस्थ, वन्दे त गौतम प्रभुम् ७

चार ज्ञान के धारक, विद्या और चारित्र्य में पारङ्गत, सकल (चौदह) पूर्वी के धारण करने वाले ऐसे विशुद्ध गौतमस्वामी को 'नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥

गोशब्दात् कामधेनुत्वं,

तकारात् तरुतुल्यता ।

मकारान्मणिसाम्यं च,

ज्ञायते गौतमप्रभोः ॥ ८ ॥

गौतम प्रभु के 'गौतम' इस नाम के अन्तर्गत 'गो' शब्द से उनमें कामधेनुतुल्यता, 'त' से कल्पवृक्षतुल्यता और 'म' से चिन्ता-मणितुल्यता प्रकट होती है ॥८॥

कामधेनु समोलोके, सर्वसिद्धिप्रदस्तथा ।

कटपवृक्षसमो वाञ्छा-पूरणे चिन्तिते
मणिः ॥६॥

सभी प्रकार की सिद्धियों के दायक होने से गौतम स्वामी इम लोक में कामधेनु समान है, अभिलाषा के पूरक होने से कल्पवृक्षसमान है और चिन्तित पदार्थों के दायक होने से चिन्तामणि समान है ॥६॥

अगुप्ते चामृत यस्य,
यञ्च सर्वगुणोदधिः ।
भण्डारः सर्वलब्धीना,
वन्दे त गौतम प्रभुम् ॥१०॥

जिनके अंगूठे में अमृत है जो सभी गुणों के सागर है सभी लब्धियों के जो

भण्डार हैं ऐसे गौतम स्वामी को नमस्कार
करता हूँ ॥ १० ॥

आमर्षौषधि लब्धिश्च,
विप्रुडोष धिरेव च
श्लेष्म-जल्लोषधी चैव,
विपुलर्जुमती तथा ॥११॥

संभिन्नश्रोत्रलब्धिश्चा,
वधिलब्धिस्तथैव च
मनःपर्ययलब्धिश्च
लब्धिःकेवलिनस्तथा ॥१२॥

लब्धिर्गणधरस्यापि,
लब्धि पूर्वधरस्य च ।

पदानुसारिलव्धिश्च,

लव्धि.क्षीगस्रवस्य च ॥१३॥

घृतास्रवस्य लव्विश्च

लव्विर्मध्वास्रवस्य च ।

वैक्रियाहारलव्वी च,

लेश्यालव्विस्तथैव च ॥१४॥

अक्षीणमहानसस्य,

लव्विर्जङ्घाचरादिका ।

लव्वयः सकलास्तस्य,

वशे तिष्ठन्ति सर्वदा । १५॥

(१)-आमशौपधिलव्वि, (२) विभ्रुलो-

परिलव्वि, (३)-श्लेष्मीपरिलव्वि, (४)-जलो-

पधिलव्वि, (५) त्रिपुलमतिलव्वि, (६)-शृजु-

मतिलट्विध, (६)- सभिन्नस्रोतलट्विध, (७)-
 अवधिलट्विध, (८)-मनःपर्यायलट्विध, (९)-
 केवलिलट्विध, (१०)- गणधरलट्विध, (११)-
 पूर्वधरलट्विध, (१२)- पदानुमालिलट्विध,
 (१३)- क्षीराम्रवलट्विध. (१४)- घृताम्रवलट्विध
 (१५)-मध्वावस्रवलट्विध (१६)- वैक्रियलट्विध,
 (१७)-आहारकलट्विध, (१८)- लेश्यालट्विध,
 (तेजोलेश्यालट्विध, शीतल्लेश्यालट्विध,
 (१९)-अक्षीणमहानसलट्विध, और इनके अति-
 रिक्त जङ्गलचरण आदिक समी लट्विधया गौतम
 स्वामी के अधीन में सर्वदा रहती हैं ॥११-१२-
 १३-१४-१५ ॥

ऋद्धिः सिद्धिः सुखं संपद्,
 यशः कीर्तिर्जयस्तथा ।

विजयश्चास्य पाठेन,

लभ्यते नात्र सशयः ॥१६॥

श्री गौतम प्रभु के इसे स्मरण के पाठ करने से भव्यों को ऋद्धि, सिद्धि, सुख, सपत्ति यश, कीर्ति और विजय का लाभ सर्वदा होता है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है ॥१६॥

दिव्यं सुखं परभवे,

तथाऽनन्तं च शश्वतम् ।

अन्य'बाधं वृवं सौख्य,

लभ्यते पद्म पदम् ॥ १७ ॥

इस स्तोत्र के स्वान्याय करने वाले परभव में देवलोक के सुखों को पाते हैं, तथा कर्मों

का क्षय करके परम्परा से अतन्त शाश्वत,
 अव्यावाध, ध्रुव-सौख्यस्वरूप परम पद मोक्ष
 की प्राप्ति करते हैं ॥१७॥

—इति सुखस्मरण ॥ ४ ॥



(४) अथ सप्तस्मरण ॥

ॐ ह्रीं श्रीं ऋषभादिचतुर्विंशति-
जिनेन्द्र म्यो नमः ।

॥ श्री गौतमस्वामिलब्धिभवतु ॥

ॐ ह्रीं श्रीं ऋषभदेव भगवान् से लगा
महारीर म्यामी तक के चाँचीसा तीर्थकर देव
को मेरा नमस्कार होरो ? श्री गौतम स्वामी
जसी लब्धि होरो ।

॥ मगलाचरण ॥

चिन्तामणिमहाविद्ये

श्रीवारे सर्वभौख्यदे ।

अचिन्त्यशुभदे शुद्धे,
संपत्तिसिद्धिप्रदे नमः ॥ १ ॥

हे चिन्तामणि महाविद्ये ? हे श्रीधारं-
लक्ष्मी की धारास्वरूप ! हे सभी प्रकार के
सौख्यों को देनेवाली ! हे अचिन्त्य शुभों को
देने वाली ! हे शुद्धस्वरूप ! हे संपत्ति और
सिद्धि को देने वाली ! तुम को नमस्कार
करता हूँ ॥ १ ॥

आनन्दकन्दसंभूते, महालक्ष्मिमहोत्सवे ।
सदाजिनेन्द्रभक्तानां संपत्तिसिद्धिप्रदे नमः

॥ २ ॥

हे आनन्दकन्द के उत्पत्तिस्थान ! हे महा
लक्ष्मी ! हे महोत्सवयुक्त ! हे जिनेन्द्र भगवान
के भक्तों को सर्वदा सम्पत्ति और सिद्धि देने
वाली ! तुमको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

नानाशास्त्रं समादाय

श्रीधारा सुखदासदा ।

लोकोत्तम लौकिकी च

धामीलालेन तन्यते ॥ ३ ॥

अनेक शास्त्रों में उद्धृत करके हम
श्री धारा शोत्र की रचना पूज्य श्री धामीलालजी
महाराज करत हैं । यह श्रीधारा सर्वदा सुख
देनेवाली है और यह लोकोत्तम और लौकिक

भेद से दो प्रकार की है ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ० संपत्प्रदे श्रीधारे
 सुधारे, सुधाधारे सुखे सुखरूपे सुखदे
 रुचिरप्रभे रुचिरकान्ते रुचिरवर्णा रुचिर-
 लेश्ये रुचिरध्वजे सिद्धे सिद्धिरूपे, सिद्धि-
 धरे सिद्धिदे, पूर्णे पूर्णरूपे पूर्णप्रभे, सूर्य-
 कान्ते, सूर्यवर्णे सूर्यलेश्ये, पद्मे पद्मरूपे
 पद्मवर्णे पद्मलेश्ये, शुक्ले शुक्लरूपे
 शुक्लवर्णे शुक्ललेश्ये, इष्टे, इष्टरूपे
 इष्टदे, कान्ते कान्तरूपे कान्तदे, प्रिये
 प्रियरूपे प्रियदे, मनोज्ञे मनोज्ञरूपे मनो-

जटे, सौम्ये, सौम्यरूपे सौम्यटे, शुभे,
 शुभरूपे शुभटे, सुभगे, सुभगरूपे सुभगटे,
 ततमे तितिमे, यथमे थिथिमे, ददमे
 दिदिमे दुदुमे, वधमे धिधिमे धुधुमे,
 ककमे किकिमे कुकुमे, ग्वग्वमे खिखिमे
 खुखुमे । इ ए ए ए रत्न रत्न मा मर्व
 ममाधीन च सर्व विघ्नतः ।

उह महाप्रिया इस प्रकार —

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मपन्नदे० इत्यादि
 विशेषणवाली हे श्रीपारा मेरी रत्ना करो, आर
 मेर आश्रितों को सभी विघ्नोंसे बचाओ ।

चंद्रे चंद्ररूपे चंद्रवर्णे चंद्रलेश्ये चंद्रो-
 त्तमे चंद्रशेखरे, यथा शशी शिशिर-
 किरणैः संतापं हर्षति, तथैव मम मत्प-
 रिवारस्य च दुःखदारिद्र्यं संतापं हर
 हर स्वाहा । यंत्रे यंत्ररूपे मंत्रे मंत्ररूपे
 तंत्रे तंत्ररूपे सर्वं मम वश्यं कुरु कुरु ।
 कर्षे कर्षवति हर्षे हर्षवति मम शरीरे
 मम गृहे मम कुटुम्बे अचिन्त्य हर्षं
 कुरु कुरु । चिन्तितं सर्वं सुखं शीघ्रं
 मह्यं देहि देहि ।

हे चंद्र के समान आह्लादक, चन्द्ररूप, चन्द्र
 जैसे वर्णवाली, चन्द्रमदश लेश्यावाली, - चन्द्र
 के समान उत्तम, चन्द्र के मुकुटवाली ! जैसे
 चन्द्रना अपनी शीतल किरणों से मनाप को
 दूर करता है उसी प्रकार आप मेरे और मेरे
 परिवारके दुःख, दारिद्र्य और सन्ताप को दूर
 करो । हे चन्द्रवाली ! हे चन्द्ररूप ! हे मन्त्रवाली !
 हे मन्त्ररूप ! हे तन्त्रवाली ! हे तन्त्ररूप ! सभी
 मेरे प्रण करो । हे हर्षवाली ! हे हर्षरूप !
 मेरे शरीरमें, मेरे घर में, मेरे बुद्धि में
 अचिन्तित सुख हो, और मेरे चिन्तित सभी
 सुख गुणों को ।

ॐ हीं श्रीं क्लीं एं हीं श्रीं

रत्नवर्षिणि अंक रत्न स्फटिकरत्न हीरक
वैडूर्यरत्न लोहिताक्ष रत्न हंस गर्भ
पुलाक ज्योतिः सौगन्धिकादिविभिध
रत्नानि वर्षय । बहुधनधान्यैर्मम कोश-
कोष्ठागारं पूर्णं कुरु कुरु ।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं एं ह्रीं श्रीं हे
रत्नवर्षिणी ? (हे रत्नोंकीवर्षा करने वाली) अङ्क
रत्न, स्फटिकरत्न, हीरा, वैडूर्यरत्न, लाहिताक्ष-
रत्न, हंसगर्भ, पुलाक, ज्योतिसौगन्धिक आदि
विविध रत्नों की वर्षा करो । हे हिरण्यसुवर्ण-

वर्षिणि ? (हे हिरण्यसुवर्ण वरसाने वाली ?)

मेरे पर मे हिरण्यसुवर्ण की वर्षा करो ? बहुत धन्य धान्य से मेरे कोप और कोठार को पूर्ण भरो ।

अमृते, अमृतोपमे, अमृतद्रवे
अमृतस्त्रवे अमृतवदने अमृतसेचने
अमृतपूर्णे मा ममाधीनान् अमृतमयान्
कुरु कुरु ।

हे अमृते ? हे अमृत की उपमावाली ?
(हे अमृत समान ?) हे अमृत के समान
तरल ?, हे अमृत की धारा बहाने वाली ?, हे

अमृत के समान सुख वाली ?, हे अमृत का
 सेचन करने वाली ?, हे अमृत पूर्ण ? मुझको
 और मेरे अधीन सभी लोगों को अमृतमय
 करो ।

ऐं कामराज क्लीं शुद्धे बुद्धे
 बुद्धरूपे बुद्धिदे सिद्धे सिद्धिरूपे
 सिद्धिदे मम सर्वकार्याणि साधय साधय ।
 ॐ अहं वशिनि मोहनी सर्वान् मम
 वश्यान् कुरु कुरु सर्वान् मोहय मोहय
 ॐ ह्रीं श्रीं सुखसुधाहिरण्यसुवर्णवर्षिणि
 मम सुखं वर्षय २ सुधां वर्षय २, हिरण्यं

वर्षय २, सुवर्णं वर्षय २, आभकरे
 प्रभकरे, चन्द्रे चन्द्रकान्ते चन्द्रावर्ते
 चन्द्रवर्णे चन्द्रलेज्ये चन्द्रश्रेष्ठे चन्द्रशेखरे
 सृरे सृग्प्रभे सृक्काते सृक्लेज्ये सृक्श्रेष्ठे
 सृग्शेखरे मम लोकोत्तर सुखदं चमत्कार
 कुरु २ ॐ ह्रीं घृणि सूर्यः आदित्य श्री -
 मम सर्वाविष्यावि चिन्तारोगशोकान्
 नाशय २, मम तुष्टि पुष्टि सुख च कुरु
 कुरु । ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवति
 प्रन्नपुर्णे ननवान्य वर्षय २ । सर्वमिष्टि-

दायिनि सर्वसुखदायिनि श्री सीमंधर-
 स्वामिनं सर्वज्ञं सर्वदर्शिनं जिनमनुस्मर,
 गणधर, सत्यमनुस्मर, निर्ग्रन्थप्रवचन-
 मनुस्मर, आदिनाथजिनमनुस्मर, शांति
 नाथजिनमनुस्मर, पार्श्वनाथजिनमनु-
 स्मर, वर्द्धमानजिनमनुस्मर, शेषसर्व-
 जिनमनुस्मर, अवधिजिनमनुस्मर, मनः
 पर्ययजिनमनुस्मर, केवलिजिनमनुस्मर,
 आमशौषधिमनुस्मर, विप्रुडोषधिमनु-
 स्मर बीजबुद्धिमनुस्मर, अक्षीणमहान-
 सलब्धिधरमनुस्मर, नवपूर्वधरमनुस्मर-

यावञ्चनुदंशपूर्वधरमनुस्मर, वैक्रियलब्धि-
धरमनुस्मर, आहारकल्लब्धिधरमनु स्मर।

ॐ कामराजकली, हे शुद्धे । हे बुद्धे । हे
बुद्धरूपे । हे बुद्धि दे । हे सिद्धे । हे सिद्धिरूपे
हे सिद्धि दे । मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करो ।
ॐ अर्ह हे वशिनी । हे मोहिनी । सभी को
मेरे प्रश करो । सभी को मोहित करो । ॐ ह्रीं
श्रीं हे सुवसुधा-हिरण्यसुवर्ण की वरसाने
वाली । मेरे लिये सुख की वर्षा करो,
सुधा की वर्षा करो, हिरण्य की वर्षा
करो, सुवर्ण की वर्षा करो । हे आभकरे ।

हे प्रभंकरे ! हे चन्द्रे ! हे चन्द्रफान्ते ! हे
 चन्द्रावर्णे ! हे चन्द्रवर्णे ! हे चन्द्रलेश्ये ! हे चन्द्र
 श्रेष्ठे ! हे चन्द्रशेखरे ! हे सूर ! हे सूरप्रभे !
 हे सूरकांते ! हे सूरलेश्ये ! हे सूर श्रेष्ठे ! हे
 सूरशेखरे ! सुभक्तो लोकोत्तर सुखदायी चमत्-
 कार दो । ॐ ह्रीं घृणिः सूर्यत्रादित्य श्रीं मेरे
 सभी आधि, ज्याधि, चिन्ता, रोग, शोलों को नष्ट
 करो, सुभक्तो तुष्टि, पुष्टि और सुख दो । ॐ
 ह्रीं श्रीं कजीं हे सर्वसिद्धिदायिनि ! हे
 सर्वसुखदायिनि ! सर्वज्ञ, सर्वदर्शी श्री सीमन्धर
 स्वामी जिनका स्मरण करो, गणधरसत्य का
 स्मरण करो, निर्ग्रन्थ प्रवचन का स्मरण करो,
 आदिनाथ जिनका स्मरण करो, शान्तिनाथ

सकलजिनशासनदेवमनुस्मर, स-
 कलजिनशासनदेवीमनुस्मर, बलकूटे
 बलदेवमनुस्मर, गंधमादने गंधमादन-
 देवमनुस्मर, ब्राह्मी सुन्दरीमनुस्मर, श्री
 देवीमनुस्मर, नन्दनकूटवासिनीं मेघं-
 करादेवीमनुस्मर, मन्दरकूटवासिनीं
 मेघवतीदेवीमनुस्मर, निषधकूटवासिनीं
 सुमेधादेवीमनुस्मर, हैमवतकूटवासिनीं
 मेघमालिनीदेवीमनुस्मर, रजतकूटवा-
 सिनीं सुवत्सादेवीमनुस्मर, रुचककूट-

वासिनीं वत्समित्रादेवीमनुस्मर, सागर-
 चित्रकूटवासिनीं वैशेनादेवीमनुस्मर,
 वज्रकूटवासिनीं वलाहकादेवी मनुस्मर ।
 वन्यशालिभद्रमनुस्मर ॥

सभी जिनशासनदेवी का स्मरण करो,
 सभी जिनशासनदेवियों का स्मरण करो,
 वलकूट पर्वत निवासों वन्देय का स्मरण
 करो, गन्धमादन पर्वत निवासों गन्धामादन-
 देय का स्मरण करो, माही और मुन्डरी का
 स्मरण करो, श्री देवी का स्मरण करो, नन्द
 नगूट में रहनेवाली मेघ देवी का स्मरण
 करो, नन्दनगूट में रहनेवाली मेघ देवी

वासिनीं वत्समित्रादेवीमनुस्मर, मागर-
 चित्रकूटवामिनीं वैरसेनादेवीमनुस्म-
 वज्रकूटवामिनीं बलाहकादेवी मनुस्मर ।
 वन्यशालिभद्रमनुरमर ॥

नभी जिनशामनदेवो या स्मरण करो,
 नभी जिनशामनदेवियो या स्मरण करो,
 पलकूट पर्यंत निशामी बलदेव या स्मरण
 करो, गणमान्न पर्यंत निशामी गणमान्न-
 देव या स्मरण करो, माही श्वर मुन्दी या
 स्मरण करो, श्री देवी या स्मरण करो न
 कूट मे रहनेवाली मेरु ह्या देवी या स्मरण
 करो, भद्रकूट मे रहनेवाली मेरुश्री देवी

का स्मरण करो, निपेधकूट में रहनेवाली
 सुमेधा देवी का स्मरण करो, हैमवत कूट में
 रहनेवाली मेघमालिनी देवी का स्मरण करो,
 रजतकूट में रहनेवाली सुवत्सादेवी का स्मरण
 करो, रुचककूट में रहने वाली वत्समित्रादेवी
 का स्मरण करो, सागरचित्रकूट में रहनेवाली
 वैरसेनादेवी का स्मरण करो, वज्रकूट में
 रहनेवाली बलाहका देवी का स्मरण करो !
 धन्यशालीभद्र का स्मरण करो ।

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीदेवी आगच्छ
 २ ममगृहे मम निवासस्थाने धानधारां
 वर्षय २, सर्वं मनवाञ्छितं पूरय २, क्षणमी
 क्षणैः मम सर्वं क्षणं सुखमयं कुरु कुरु ।

१४७ ७७ ३ गम तम ७५ १५ २० २० २० २०

ने ? आवो उदत्तविचार तेओनी शुष्कभूमिमां कयांथी
 श्री तेमणे यन्त्रिनेता पर वाह भाटे हेन्डणीव द्वारा ज्जहेर
 व्ही. सुनेका सपने जगाउवो, सिद्धना मुभमां ७५ नांयवो

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीदेवी । आओ, मेरे
घर में मेरे निरासम्भान में वनवारा की
वृष्टि करो मेरे सभी वान्छित को पूर्ण
करो, प्रतिक्षण मेरे उपर कृपा दृष्टि रखो
और मेरे सभी क्षण-समय को सुखमय करो ।

पद्मा श्री मन्मथ कल्लो हृदय नम.
सुप्रतिष्ठे श्रेष्ठे वरिष्ठे शमे शमप्रभे
महाप्रभे भासुरे भासुप्रभे मम सर्वमनो-
ग्य पूर्य २ । वनवान्यहिरण्यसुवर्णा-
विविधगत्नवृष्टि कुरु कुरु ।

पद्मा श्री मन्मथ कल्लो हृदय नम ।

हे सुप्रतिष्ठे ! हे श्रेष्ठे ! हे वरिष्ठे ! हे गरिष्ठे
 हे शमे ! हे शमप्रभे ! हे महाप्रभे ! हे
 भासुरे ! मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करो,
 धन, धान्य, हिरण्य सुवर्ण और त्रिविध रत्नों
 की वृष्टि करो ।

ॐ ह्रीं श्रीं रूपे प्रसीद २ । ॐ
 श्रीं दिव्यानुभावे प्रसीद २ । ॐ श्रीं
 उज्ज्वले प्रसीद २, ॐ ह्रीं श्रीं उज्ज-
 वलरूपे प्रसीद २ । ॐ श्रीं ज्योतिर्मयि
 प्रसीद २ । ॐ श्रीं ज्योतिरूपधरे प्रसीद
 २ मम गृहं मम गृहस्य अंगणं नन्दन.

नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ने ? आवो विद्वत्तवियार तेओनी शुष्कभूमिमां कथांथी
 श्री तेमणे अग्निनेता पर वाद भाटे हेन्डपील द्वारा न्दरे
 इदी. सुतेका सर्पने नगाडवे, सिद्धना मुष्मं हाथ नांभवे

वन कुरु कुरु । ॐ अमृतकुम्भे प्रसीद
 २ । ॐ अमृतकुम्भरूपे प्रसीद २ मम
 वाञ्छित देहि २ । ॐ ऋद्धिदे प्रसीद २,
 ॐ समृद्धिदे प्रसीद २, ॐ महालक्ष्मि
 प्रसीद २, ॐ श्रीं लोकमात प्रसीद २,
 ॐ श्रीं लोकजननि प्रसीद २, ॐ श्रीं
 गोभावर्द्धिनि प्रसीद २, ॐ श्रीं अमृ-
 तसजीवनि प्रसीद २, ॐ श्रीं शान्तल-
 हरि प्रसीद २, ॐ श्रीं प्रशान्तलहरि
 प्रसीद २, ॐ श्रीं शातप्रशातलहरि

प्रसीद २ । ॐ श्रीं ग्लौं श्रीं नमः, ॐ
 हीं सर्वशत्रुदमनि सर्वशत्रुन् निवारय २
 विघ्नं छिन्धि २ प्रसीद २ धरभौन्द्रपद्मा-
 वति मम सुखं कुरु २ प्रसीद २ ।

ॐ हीं श्रीं (प्रशस्त रूपवाली) मेरे
 उपर प्रसन्न होओ । ॐ श्रीं हे दिव्या
 तुभावे ! दिव्यप्रभावशाली !) मेरे उपर प्रसन्न
 होओ । ॐ हीं श्रीं हे उज्वले ! प्रसन्न होओ
 ॐ हीं श्रीं हे उज्ज्वलरूपे । प्रसन्न होओ
 ॐ हीं श्रीं हे ज्योतिर्मय ! प्रसन्न होओ ।
 ॐ हीं श्रीं हे ज्योति रूपधरे ! प्रसन्न

नष्टतु इतु इ गम तम हाथ पणु प्गलाण्णवाना ता
 ने ? आवो उदात्तवित्तर तेओनी शुष्कभूमिमां कयांथी
 श्री तेमणे अरित्रनेता पर वाः माटे हेन्डणीव द्वारा ग्गहेर
 । नुतेवा सर्पने जगाडवे, सिद्धता मुष्ममां हाथ नांभवो

होओ, मेरे घर को परे घर के आगन को
 नन्दनयन करो । ॐ हे अमृत कुम्भे प्रसन्न
 होओ । ॐ हे अमृत कुम्भरूपे । प्रसन्न होओ,
 मेरे सभी वाञ्छित पूर्ण करो, ॐ हे ऋद्धि
 दे । प्रसन्न होओ, ॐ हे समृद्धि दे ! प्रसन्न
 होओ, ॐ श्री हे महानदमी । प्रसन्न होओ,
 ॐ श्री हे लोकमाता । प्रसन्न होओ । ॐ श्री
 हे लोकननि । प्रसन्न होओ, ॐ श्री हे
 शोभावर्द्धिनि । (गोभा बढ़ाने वाली) प्रसन्न
 होओ, ॐ श्री हे अमृतसज्जोवनि ! प्रसन्न
 होओ, ॐ श्री हे शान्तलहरी ! प्रसन्न होओ,
 ॐ श्री प्रशान्तलहरी । प्रसन्न होओ, ॐ श्री
 शान्तप्रशान्तलहरी । प्रसन्न होओ, ॐ श्री

ग्लौँ श्रीँ आपको नमस्कार हो ॐ ह्रीँ हे
सभी शत्रुओं का दमन करनेवालो ! सभी
शत्रुओं का निवारण करो, विघ्न का छेदन
करो, प्रसन्न होओ, हे धरणेन्द्र पद्मावती !
मुझे सुख दो, प्रसन्न होओ !

मूलमंत्र- ॐ ह्रीँ श्रीँ असिआउ-
साणं नमः ।

मूलमन्त्र- ॐ ह्रीँ श्रीँ असि अ उसा णंनमः

१. श्री अरिहन्त देव को नमस्कार हो ।
२. श्री सिद्धभगवान् को नमस्कार हो ।
३. श्री आचार्य को नमस्कार हो ।

।धृ उतु इ गम तम ह्यय पयु ण्णल्लवाला ता
ने ? आवो उततवियार तेओनी शुष्कभूमिमां कथांथी
धी तेमणे अरिनेता पर वाह माटे हेन्डभीव द्वारा लहेर
। सुनेश सपने लगाउवो, सिद्धता भुषमां हाथ नांभवो

४ श्री उपायाय को नमस्कार हो ।

५ लोक में प्रिराजमान सभी साधु-मात्रियों को नमस्कार हो ।

ॐ मंगलकरि प्रसीद, २, सुख-
करि प्रसिद ० ॐ शान्तिकरि प्रसीद २
ॐ ऋडिसिद्धिकरि प्रसीद २. सुख देहि
शान्ति देहि, ऋडिभिद्धि देहि, ॐ
किलिकिलि एहि एहि आगच्छ आगच्छ
मर्वसिद्धिदायिनि मम मनोवाञ्छित
शीघ्रं पूरय पूरय ।

ॐ हे मंगल करनेवाली । प्रसन्न होओ,

ॐ हे सुख करनेवाली ! प्रसन्न होओ, ॐ हे शान्ति करने वाली प्रसन्न होओ, ॐ हे रद्धि-सिद्धि करनेवाली ! प्रसन्न होओ, सुख दो शान्ति दो, ऋद्धिसिद्धि दो, ॐ किलिकिलि ! एहि एहि (आओ आओ) आगच्छ आगच्छ (आओ आओ) हे सभी सिद्धियों को देने वाली । मेरे सभी मनोवान्छितों को शीघ्र पूर्ण करो ।

साध्यमंत्र— ॐ श्रीधारे प्रसीद प्रसीद । उपहृदयम्— ॐ त्रिलोकवासी-न्यै केवल लक्ष्म्यै नमः धन्यधान्य—

वेदं तु इतु इ गम नम ह्यय पणु ज्जलान्जवावा ता
 ने न आवो छिदात्तवित्वात् तेओनी शुष्कभूमिमां इयांथी
 श्री नेमां नारित्रनेता पर वाह मांटे ऐन्डपीध द्वारा ज्जलेर
 . मुनेना अर्पने नगाएवो. सिहना मुणमां ह्यथ नांभवो

हिरण्य सुवर्णधारा ममनिवासे पातय २
 ॐ श्री रत्नसिंहासने प्रसीद २, ॐ
 कमलासने प्रसीद २ । ॐ रत्नकुण्डले
 प्रसीद २, रत्नमुकुटे प्रसीद २ । रत्न-
 भूषणे प्रसीद २ । ॐ चारुच्यत्रचामरे
 प्रसीद २, ॐ सहस्रकिरणप्रद्योतकरि
 सर्वराजवशकरि सवप्रजावशकरि सर्व
 लोकवशकरि सर्व मम वश्य कुरु
 कुरु ।

उपहृदय- ॐ त्रिलोक्यामिनी लक्ष्मीः

नमस्कार हो, धन्य धान्य हिरण्य सुवर्ण की
 धारा मेरे घर में वर्षाओ ! ॐ श्रीं हे रत्न-
 सिंहासने ! (रत्नसिंहासनवाली) प्रसन्न होओ ।
 ॐ हे कमलासने ! (कमल के आसनवाली !)
 प्रसन्न होओ । ॐ हे रत्नकुण्डल वाली ! प्रसन्न
 होओ । ॐ हे रत्नमुकुटवाली ! प्रसन्न होओ,
 ॐ हे रत्नों के भूषणवाली ! प्रसन्न होओ ।
 ॐ हे चारु (सुन्दर) छत्र और चामरवाली !
 प्रसन्न होओ । ॐ हे सहस्र किरणों से प्रकाश
 करनेवाली ! हे सभी राजाओं को वश करने
 वाली ! हे सभी प्रजाको वश करनेवाली ! हे
 सभी लोगों को वश करने वाली ! सभी को
 मेरे वशमें करो ।

ॐ त्र्यम्बकं यजन्तुं वरुणं विश्वं ।
 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः ।
 भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्तः ।
 धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महामायः

प्रसीदतु । इन्द्रः प्रसीदतु । सूर्यः
 प्रसीदतु । सोमः प्रसीदतु । यमः प्रसी-
 दतु । वरुणः प्रसीदतु । वैश्रवणः प्रसी-
 दतु । हर्मिगंगमेपितेवः प्रसीदतु ।
 त्रिजृम्भकः प्रसीदतु । शब्दापातिन्वा-
 मि न्वातिदेव प्रसीद २ । विकटापा-
 निन्वामिप्रभानदेव प्रसीद २ गवापाति-
 न्वाभ्यर्णदेव प्रसीद २ । मानसदेव-
 ट्ठिन्वामिपद्मदेव प्रसीद २ । सर्वदिशा-

भ्यः सर्वविदिशाभ्यः कल्पलतेव मम
वाञ्छितं पूरय २ ।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महामाया प्रसन्न
होओ ! इन्द्र प्रसन्न होओ ! सूर्य प्रसन्न होओ
सोम प्रसन्न होओ ! यम प्रसन्न होओ ! वरुण
प्रसन्न होओ ! वैश्रवण प्रसन्न होओ । हरिणै-
गमेषि देव प्रसन्न होओ । त्रिजृम्भक देव
प्रसन्न होओ शब्दापाति पर्वत के स्वामी हे
स्वाति देव ! प्रसन्न होओ विकाटापाति पर्वत
के स्वामी हे प्रभांस देव प्रसन्न होओ । गन्धा-
पाति पर्वत के स्वामि हे अरुण देव ! प्रसन्न
होओ । माल्यवान् पर्वत के स्वामी हे पद्म-

१४८ ६८ ६ गम तम ह्यय पयु गगलाज्जवाला ता
ने ? आवो उदात्तवियार तेओनी शुष्कभूमिमां कथांथी
गी तमणे यश्चिनेता पर वाद माटे हेन्डपील द्वारा ज्वाडेर
सुनेका सर्पने जगाडवो, सिंढना मुष्ममां ह्यथ नांजवो

देहि २ दापय २ मह्यं हितकरं शांति-
 करं कुलकरं वंशकरं वंशवृद्धिकरं ।
 महापद्महृदनिवासिनि ही देवी मम-
 लज्जां रक्ष २ महापुंडरीकहृदनिवासि-
 नि बुद्धिदेवि मम बुद्धि देहि २ ।
 तिगिच्छहृदनिवासिनि धृतिदेवि मम
 धैर्यं कुरु २ । केसरिहृदनिवासिनि
 कीर्तिदेवि मम यश किर्ति प्रसारय २ ।

हे दयामयि ! मेरे ऊपर दया करो २
 जागो २ उठो २ सुखकर हिरण्य सुवर्ण दो,
 मुझे हित कर, शान्तिकर, कुलकर, वंशकर

वशवृद्धिकर, हिरण्य सुवर्ण दिलाओ । महा-
 पद्महृद मे निवास करनेवाली हे ही देवी
 मेरी लज्जा रखो महापुण्डरीक हृद मे निवास
 करनेवाली हे बुद्धिदेवी ! मुझे बुद्धि दो । ति-
 गिच्छहृद मे निवास करनेवाली हे धृतिदेवी !
 मुझे धैर्य दो । केसरी हृद मे निवास करने-
 वाली हे कितिदेवी । मेरे यश और किति को
 फैलाओ ।

ॐ ह्रीं विश्वरूपिणि, विभूति-
 विभूतिरूपिणि, सृष्टि सृष्टिरूपिणि,
 धृति धृतिरूपिणि, किति कितिंरूपि-
 णि, सिद्धि सिद्धिरूपिणि, सर्वसुखसा-

प्राज्यदायिनि मम त्रिलोकसंपदं कुरु
 कुरु, हिरण्यसुवर्णैः सुखसिद्धिसौभाग्यैः
 श्रेष्ठैः सर्वोपकरणैः सर्वभोगैः सर्वो-
 पभोगैश्च मम कोषकोष्ठागाराणि
 भर भर पूरय पूरय ।

ॐ ह्रीं हे विश्वरूपिणि ! हे विभूति !
 हे विभूतिरूपिणि ! हे सृष्टि ! हे सृष्टिरूपि
 णि ! हे धृति ! हे धृतिरूपिणि ! हे किर्ति !
 हे किर्तिरूपिणि ! हे सिद्धि ! हे सिद्धिरूपिणि !
 हे सभी सुख और साम्राज्य को देनेवाली !
 मुझे तीनों लोकों की सम्पत्ति दो, हिरण्यों से,

सुवर्ण से, सुखों से, सिद्धियों, सौभाग्यों से,
 श्रेष्ठ सभी सामग्रियों से सभी भोगों से
 और सभी उपभोगों से मेरे कोप और कोटा-
 रों को भरो, पूर्ण करो ।

मूलविद्या—

ॐ नमिउत्ता असुरसुरगरत्नभुयगपरि
 वटिय गयकिलेसे अरिहा सिद्धायरिय उवज्जाय
 सब्वसाहुणो ॥

ॐ हीं नम. धनदपुत्रि जगत्स
 वित्रि अष्टसिद्धिप्रदानमहानिधान सु-
 वर्णकोटि रत्नकोटि शतसहस्रसपन्ने

आगच्छ २ भगवति मम गृहे मम पुरे
 प्रविश प्रविश मम अक्षोण सर्वधनं
 धारारूपेण वर्षय वर्षय ।

ॐ ह्रीं नमः हे धनदपुत्रि ! हे जग-
 त्सवित्रि ! हे अष्टसिद्धिप्रधान महानिधान-
 वाली ! लक्षलक्ष सुवर्णकोटि और रत्नकोटियों
 से युक्त ! आओ, २ हे भगवति ! मेरे घर में
 मेरे पुर में प्रवेश करो, मेरे लिये सभी प्रकार
 के अक्षीण धनों को धारारूप में बरसाओ ।

महाविद्या—

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीधारे मम चिंति-

तसुखदायिनि अचितितसुखदायिनि
 प्रसीद २ मम सर्वं कार्यं माधय
 साधय ।

महाविद्या—

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीधारे मम चितित सुख
 दायिनि अचितित सुखदायिनि प्रसीद २ मम
 सर्वं कार्यं साधय साधय ।

सर्वसुखनिधियत्र—

श्र	श्र	व	व
र	व	भ	भ
द	द	ध	ध

ॐ नमः श्रीधारे चिंतामणि
 महाविद्ये करुणशरणे दीन भरणे
 जगदुद्धरणे विमलकमलवासिनि हि-
 रण्य- सुवर्णाधनधान्यकरि मम सक-
 लार्थसिद्धिं प्रापय प्रापय, सर्वचिंतां
 चूरय चूरय, सर्वरिपुन स्तंभय २, नि-
 वारय २, जृंभय २, मोहय २, सुखदे
 शिवदे शान्तिदे शुभदे प्रमोददे मम
 सर्वसौभाग्यं ऋद्धिं सिद्धिं समृद्धिं वश्यं
 रक्षांच कुरु कुरु, मम जयं विजयं च
 कुरु कुरु ॥

परमहृदय—

ॐ नमस्कार हो, हे श्रीधारे ! हे चिन्ता
 मणि महाप्रिये ! हे दयनीय लोगोंके शरण
 रूप ! हे दीनो का भरण करनेवाली ! हे जगत
 के उद्धार करनेवाली ! हे विमलकमलके उपर
 ग्रासकरनेवाली ! हे हिरण्य-सुवर्ण-वन-गान्ध
 देनेवाली ! मेरे सभी श्रमों को सिद्ध करो,
 मेरी सभी चिन्ताओंको चूरो मेरे सभी शत्रु-
 शत्रुओंको सन्ध करो, निवारित करो, जृम्भित
 करो, मोहित करो, हे सुपदेनेवाली ! हे
 शिव-कल्याण-देनेवाली ! हे शान्तिदेने
 वाली ! हे शुभ देनेवाली ! हे प्रमोद देनेवा-

ली ! मुझे सभी सौभाग्य दो, ऋद्धि दो,
सिद्धि दो, समृद्धि दो, सभी को मेरे वश
में करो, मेरी रक्षा करो, मेरी जय-विजय करो ।

यह विद्या अचलमति विद्याधरने
भद्रनंद नामक गाथापति को दी ।

॥ इति श्रीधारामहाविद्यानामक संपत्स्मरण ॥४॥

५- अथ रिद्धिस्मरणम्

ऋद्धिस्मरणमात्रेण जायते ऋद्धिमान्नरः ।
तस्माद् ऋद्धिं भगवतः प्रवक्ष्यामि

शुभावहाम् ॥१॥

५— ऋद्धिस्मरण

भगवानकी ऋद्धिके स्मरणमात्र से मनुष्य ऋद्धिमान होता है इसलिये भगवान की शुभदायक ऋद्धि को मैं कहता हूँ ॥१॥
 ऋद्धे निर्रीक्षणा कर्तुं यस्याहारकलाब्धकः
 गच्छत्याहारक कृत्वा तस्मै भगवते
 नमः ॥२॥

आहारकलब्धिवाले मुनि, भगवान की ऋद्धि को देखने के लिये आहारक लब्धिका स्फोरण करके उनके समीप जाते हैं ऐसे भगवान् को नमस्कार करता हूँ ॥२॥

अनन्तं केवलं ज्ञानं,
तथा केवलदर्शनम् ।

अनन्त सौख्यमप्येवं,
सभ्यकृत्वं क्षायिकं तथा ॥३॥

यथाख्यातं च चारित्र्यं,
मवेदित्वमतीन्द्रियम् ।

दानादिलब्धयः पञ्च,
द्वादशोक्ता गुणा इमे ॥४॥

—अरिहंत भगवान् के बारहगुण—

(१) अनन्त केवल ज्ञान, (२) अनन्त केवल दर्शन, (३) अनन्त सौख्य, (४) क्षायिक

सम्यक्त्व, (५) प्रयास्यातचारित्र (३) अवेदित्व,
 (७) अतिन्द्रियत्वं और पाच दानादिलब्धि
 अर्थात् (८) दानलब्धि, (९) लाभ लब्धि,
 (१०) भोगलब्धि, (११) उपभोगलब्धि' और
 (१२) वीर्यलब्धि, ये बारह गुण अरिहता में
 होते हैं । ॥ ३-६ ॥

दिव्य लोकोत्तर रूप

दिव्यलावण्यसम्भृतम् ।

दिव्य ज्ञानादिकं यस्य

तस्मै भगवते नमः ॥५॥

जिनका दिव्य रूप है, जो दिव्य लाव-

ऋतुवश्च वसन्ताद्याः,

सर्वे प्रादुभवन्ति च ।

लोकाः प्रमुदिता यस्मात्,

तस्मे भगवते नमः ॥८॥

जिन भगवान् की अतिशय महिमा से वसन्त- आदि सभी ऋतुएं एक साथ प्रकटित होती हैं और जिनसे सभी लोगों को आनन्द होता है, ऐसे वगवान को मैं नमस्कार करना हूँ ॥८॥

संवर्तकेन वातेन,

तत्र योजनमण्डलम् ।

सशोध्यते च परितः,
 प्रासु पुष्पाम्बुवर्षणम् ॥६॥

रूप्यसालो दीप्यमानः
 स्वर्णकङ्कुर-शोभितः ।
 स्वर्णसालोऽपि रूचिरो,
 रत्नकङ्कुर-शोभितः ॥१०॥

रत्नसालमृत्तीयश्च
 भास्वरो मणिकङ्कुरः ।
 इन्द्रास्तत्र चतुःपष्टि-
 रायान्ति प्रभुसन्निधौ ॥११॥

अशोकपादपस्तत्र

सिंहासनवरस्तथा ।

दुन्दुभिश्चामरं छत्रं,

प्रादुर्भवति पुण्यतः ॥१२॥

भगवान् जिनेन्द्र देवका जहां समवसरण होना है वहां पर व्यन्तरदेव, संवत्तिक-वायु वैक्रिय करके चारों तरफ योजन मण्डल क्षेत्र को पहले-पहल वहां का कूड़ा-कचरा निकालकर साफ करते हैं, फिर वहां प्रासुक (अचित्त) पुष्प और अचित्त जल की वृष्टि करते हैं, सोने के कंगुरों से शोभित, जगमगाता हुआ पहला चान्दी का गढ़ बनाते हैं, रत्नों

के कगूरो से शोभित सोनेका दूसरा गढ बनाते हैं, और मणिमय कगूरो से सुशोभित, प्रकाशमान तीसरा रत्नो का गढ बनाते है । वहा पर प्रभुके चरणों के समीप चौंसठ इन्द्र आते है । प्रभु के पुण्य से वहा पर अशोक वृक्ष श्रेष्ठ सिंहासन, दुन्दुभि, चामर और छत्रत्रय प्रगट होते हैं ॥ ६-१० ॥

भामण्डल प्रभोस्तत्र नेत्रानन्दकर परम् ।
दिव्यव्वनिश्च सर्वेषा सुखद जायते ततः॥

वहा पर नेत्रोंको आनन्द देनेवाला भामण्डल प्रगट होता है और दिव्यधनि होती है यह सभी जीवों के लिये सुखदायक होती

। ये आठ महाप्रातिहार्य तीर्थकरों के होते
हैं ॥१३॥

स्वर्गशोभा च या स्वर्गे

यावती स्वात्ततोऽधिका ।

अनन्तगुणिता शोभा ,

राजते तत्र मण्डले ॥१४॥

वहां कैसी शोभा होती है वह कहते हैं-

देवलोक में जितनी शोभा है उससे भी
अनन्त गुणित अधिक शोभा भगवान् के
समवसरण में होती है ॥१४॥

न्यूनान्यूनं कोटिसंख्या-

स्त सुरा. समुपासते ।

द्वादशाना पण्डि

देशाना दिशति प्रभुः ॥१५॥

कम से कम एक करोड देवता, प्रभुकी
उपासना करते हैं, और प्रभु भग्नपति, गान-
मन्तर, ज्योतिषी और वैमानिकदेव देविया,
तथा मनुष्य मनुष्यणी तियंर और तियंरणी
इस तरह बारह प्रकार की परिष्क मे धर्मदे-
शाना देते हैं ॥१५॥

देवा मनुष्यास्तिर्यश्वः

सर्वे शृण्वन्ति देशानाम् ।

तत्तद्वाक्परिणामिन्या

भाषया स च भाषते ॥१६॥

देव, मनुष्य, तिर्यच ये सभी प्रभुकी देशना सुनते हैं और भगवान उन उन जीवों की अपनी २ भाषा में परिणत होनेवाली भाषा में देशना देते हैं ॥१६॥

यदि खण्डमयं क्षेत्रं

मधुवारि प्रवर्षणम् ।

क्षीरसारस्य पिण्डेन

पुराणं तत्र कर्षति ॥१७॥

तत्रापि यदि बीजं स्यात्

पुण्डकस्य निरामयम् ।

सेचन तत्र सद्राज्ञा

रमेन यदि तत्फलम् ॥१८॥

तद्रसादविकानन्त

गुणा मिष्टा प्रभोर्गिरः ।

यस्य चोच्छ्वासनिःश्वासाः

पद्मोत्पलसुगन्धिकाः ॥१९॥

भगवानकी वाणी कैसी मीठी होती हे?
सो कहते ह—

अगर गंत न्याइया हो, उस ने मधु
(शहद) की गंगा हो, और न्याद के स्थान ने

उसमें क्षीरसार (मक्खन) का पिण्ड डाला गया हो, फिर उस खेतको जोते । फिर उस खेत में पुंङ्क नामके गन्ने-सांठे के नीरोग बीज बोया जाय, और उसको उत्तम द्राक्षारस से सींचे फिर यदि उसमें फल लगे और वह फल जैसा मीठा हो उससे भी अनन्तगुणी अधिक भगवान् की वाणी मीठी होती है । और भगवान् के उच्छ्वास निःश्वास पद्म-कमल और उत्पलकमलके समान सुगन्धित होते हैं ॥१७-१८-१९॥

जिनेन्द्र चरणोपान्व ये
समायान्ति वादिनः ।

सशयापगमाद् सर्वे

सुप्रसन्ना भवन्ति ते ॥२०॥

जिनेन्द्र भगवानके चरणों के समीप जो
जो वागी जाते हैं वे सभी अपने सशयके
दूर हो जानेके कारण अत्यन्त प्रसन्न होते
हैं ॥२०॥

एव समवसरणं

जिनेन्द्रस्यातिशायिनः ।

उत्कृष्टशोभासपन्न

द्योतमानं च सर्वतः ॥२१॥

अतिशय प्रभात सपन्न भगवान जिनेन्द्र

देवका समवसरण, इस प्रकार उत्कृष्ट शोभा से युक्त और चारों तरफ से प्रकाशमान होता है ॥२१॥

तत्र रत्नमयी भूमा

रत्नप्राकार गोपुरम् ।

रत्नपत्रैरत्नपुष्पै

वृक्षैरत्नफलैर्युतम् ॥२२॥

उस समवसरण की भूमि रत्नमयी होती है उसमें प्राकार (कोट) रत्नों का होता है, गोपुर (नगरद्वार) भी रत्नों का होता है, और वहां पर रत्नों के पत्रवाले रत्नों के पुष्पवाले और रत्नों के फलोंवाले वृक्ष होते हैं ॥२२॥

क्वचिद् वैडूर्यसकाशं

क्वचिन्नीलमणिप्रभम् ।

स्फटिकाभ क्वचिज्ज्योतिः

पद्मरागसम क्वचित् ॥२३॥

क्वचित् काञ्चनसकाश

बालसूर्यसमं क्वचित् ।

क्वचिन्मयध्याह्नसूर्याभ

विद्युत्कोटिसमंक्वचित् ॥२४॥

यहाँ की रत्नभूमि कहीं पर वैडूर्य मणि के समान चमकती है कहीं पर नीलमणि के समान, कहीं पर स्फटिक रत्न के समान,

कहीं पर ज्यौतिरत्न के समान, कहीं पर पद्म
 राग मणि के समान, कहीं पर सोने के समान
 कहीं पर बालसूर्य के समान, कहीं पद्म मध्या-
 ह्नकालिक सूर्य के समान और कहीं पर करोड़ों
 विद्युतों के समान चलकती है ॥२३ २४॥

न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्
 कोट्योमणयोऽपिन ।

जिनप्रभायाः कोट्यंश-

कोट्यंशेनापि ते समाः ॥२५॥

जिनेश्वर की प्रभाके कोटि अंश के
 कोटि अंश (करोड़ वे अंश के करोड़ वे अंश)

की भी तुलना न सूर्य कर सकते हैं, न चन्द्र-
मा कर सकते हैं, न करोड़ों विद्युत् कर सकती
हैं, न मणिया ही कर सकती हैं ॥२५॥

लोकोत्तराऽऽर्हती

ऋद्धिर्द्रव्यतो भावतस्तथा ।

मण्डलान्तःस्थवस्तूना

दिव्यदीप्तिविधायिनी ॥२६॥

तस्या विशुद्धभावेन

पाठेन विधिनाजनः ।

भवेत् स्वल्पेन कालेन

द्रव्यभावर्द्धिसंयुतः ॥२७॥

अर्हन्तों की लोकोत्तर द्रव्य और भाव ऋद्धि, मण्डल के अन्तर्गत वस्तुओंकी दिव्य दीप्ति को उत्पन्न करनेवाली होती है। जिनेन्द्र भगवान् की ऐसी लोकोत्तर ऋद्धिका विधि पूर्वक विशुद्ध भाव से पाठ करने से मनुष्य स्वल्पकाल में ही द्रव्य और भाव ऋद्धि से युक्त हो जाता है ॥२६-२७॥

॥ इति ऋद्धिस्मरण संपूर्ण ॥

卐 अथ षष्ठं सिद्धिस्मरणम् 卐
 सिद्धीसरणमेत्तेषां,
 सव्वसिद्धी पजायए ।

तगंह सपत्राच्छिस्त,
भन्वाण निद्रिहेयवे ॥१॥

६- अथ सिद्धिस्मरण—

सिद्धिस्मरण क स्मरण मात्र से सभी
प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, इस विषे
भन्वा की सिद्धि के निमित्त न सिद्धिस्मरण
करेंगा ॥१॥

विमलमयलमणोहर,
नमिऊगं चरण जिग्वराणं ।
वडस्त तणुतणुत्त,
मुनिद्रियं नविद्रियद्राण ॥२॥

विमल और सर्वापेक्षा मनोहरजो जिनेन्द्रों के चरणकमल हैं उन्हें नमस्कार करके, कवच के समान शरीर की रक्षा करनेवाला, सुख-सिद्धि देनेवाला इस कवच को मैं भव्यजनों के हितार्थ कहूँगा ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीं उसभोसिर मवउ

ॐ ऐं क्रौं वि अजिओभालं ।

ॐ श्री संभववोनेत्तं, पाउसया

सव्व सम्मदोय ॥३॥

ॐ ह्रीं श्री श्री ऋषभस्वामी मेरे शिर की रक्षा करें, अर्थात् इनके प्रभाव से शिर की रक्षा हो । ऐसा सब जगह समझ लेना चाहिये ।

ॐ ऐं क्रौं श्रीं अजितनाथ स्वामी मेरे
भाल (ललाट) की रक्षा करें ।

ॐ श्रीं सभी प्रकार के कल्याण को
देनेवाले श्री सभयनाथ स्वामी मेरे नेत्रों की
सदा रक्षा करें ॥३॥

घ्राणिदिय सब्रया,

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्री अभिनंदणो ।
वञ्जत्र पाउ सुमइ ॐ,

कराणां ॐ क्लौं च पउमप्पहो ॥ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्री अभिनन्दन
स्वामी मेरे प्राणेंद्रिय (नाक) की सदैव रक्षा
करें ।

ॐ श्री सुमतिनाथ स्वामी मेरे वक्षस्थल
की रक्षा करें ।

ॐ क्लौ श्री पद्मप्रभु स्वामी मेरे
कर्णेन्द्रिय (कान) की रक्षा करें ॥४॥

कंठसंधि तु रक्खउ,
ॐ ह्री श्री क्लौ सुपास जिणवरो में ।
खंवं पुणपाउ मज्झक,

ॐ ह्री श्री जिणचंदप्पहो ॥५॥

ॐ ही श्री क्लौ जिनवर श्री पार्श्व-
नाथ स्वामी मेरी कण्ठसन्धि की रक्षा करें ।

ॐ ह्री श्री जिनेश्वर चन्द्रप्रभ

स्नानी मेर स्कन्ध (कन्वे) नी सर्वदा रत्ना
करे ॥१॥

ॐ क्रो ॐ सुविधिवुद्धि,

अत्रउ मिज्जंस वासुपुज्जो करज ।

विमलजिणो उयर मे,

ॐ ह्रीं श्रीं वण्णुत्तकलिओ ॥६॥

ॐ क्रो ॐ श्रीं सुविधिनाम स्नानी मेरो
बुद्धि नी रत्ना करे ।

ॐ क्रो ॐ श्रीं त्रेतामनाम स्नानी मेर
दहिने हाथ नी प्रगुलिया छी र ॥ करे ।

ॐ क्रो ॐ श्रीं रामुपुज्य स्नानी मेरे पांच
प्रार नी प्रगुलिया छी र ॥ करे ।

ॐ ही ॐ श्री ॐ श्री विमल जिन मेरे
उदर (पेट) की रक्षा करें ॥६॥

ॐ ह्रीं धम्मो जंबं,
पिट्ठं मल्लि मल्लिकुसुमकोमलो ।

सदयमुणिसुव्वयो हियं,
कुन्थू करेगीवं अरो श्री ॐ ॥७॥

ॐ ही ॐ श्री ॐ धर्मनाथ स्वामी मेरी जंघा-
ओं की रक्षा करें ।

ॐ ही ॐ मल्लिका पुष्प के समान कोम-
ल श्री मल्लीनाथ स्वामी मेरी पीठ की रक्षा
करें ।

ॐ श्री ॐ दयालु श्री मुनि सुव्रतनाथ स्वामी

मेरे हृदय की रक्षा करें ।

ॐ श्री ॐ श्री कुन्धुनाथ स्वामी मेरे हाथों
की रक्षा करें ।

ॐ श्री ॐ श्री अरनाथ स्वामी मेरी प्रिया
(गले) की रक्षा करें ॥७॥

ॐ श्री ॐ श्री ॐ नमी क्वख,
नासारोग हरउ हूँ श्री ॐ नेमी ।

अणतपासो गुज्जरोगं,
ॐ ही ॐ श्री ॐ क्ली ॐ सुकलियो ॥८॥

ॐ श्री ॐ श्री ॐ श्री नमीनाथ स्वामी मेरी
भार्या की रक्षा करें ।

ॐ ही ॐ श्री ॐ श्री नेमीनाथ स्वामी मेरे
नासिका रोग का हरण करें ।

ॐ ही ॐ श्री ॐ क्ली ॐ श्री अनन्तनाथ स्वामी
और ॐ ह्री ॐ श्री ॐ क्ली ॐ श्री पार्श्वनाथ स्वामी
मेरे गुह्यरोगों को हरे ॥८॥

ॐ श्री ॐ तिल्लोकवसं,

कुरु कुरु वद्धमाणो महावीरो ।

सत्त्वमंगलसुहकरो,

चिंतामणि-सुगतशुभ्व फलश्रो ॥९॥

ॐ श्री ॐ श्री वर्धमान महावीर स्वामी
तीनोंलोकों को मेरे वशमें करें । जो भगवान्

सभे मङ्गल ओर सुख करने वाले, चित्तामणि
 और कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट फल दाता
 है ॥ ६ ॥

सर्वे जिणगणह्य,

अगरोमाइ मञ्जक ग्वखतु ।

ॐ ह्रीं श्रीं नित्यत्नपहु,

सव्यमत्तुचय सिटिल कुरु ॥१०॥

मय नोर्वरा के मय गणधर मेरे शरीरके
 रोनाथ रण दर और ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं
 शोभनत्रय ध्याना मेरे मयी श्रुति हो
 दिव्य हो ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ,

संतीसुयसंपयं मज्झक कुण्ड समिद्धि

ॐ ह्रीं ऐं सीमंधर,

पमुहा हौतु कामधेणु व ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री शान्तिनाथ
भगवान् मुझे सुत, सम्पत्ति और समृद्धि दें।

ॐ ह्रीं ऐं श्री सीमन्धर, आदिजिनेन्द्र
कामधेनुके समान अभीष्ट फलदायक हों

॥ ११ ॥

एवं सिद्धीसरणं,

जयहियकरणं सुहावहं सययं ।

तम्हा अवभसणिञ्ज,

सव्वाण सव्वमुहवद सुवकदं ॥१२॥

॥ इति सिद्धिस्मरणम् ॥

इस प्रकार का यह सिद्धिस्मरण, मनुष्यों को सर्वदा हित करनेवाला और सुख देनेवाला है, इसलिये सभी सुखोंके कण्ड स्वरूप इस स्मरण का अभ्यास सभी को करना चाहिये ॥१२॥

॥ इति सिद्धिस्मरण सपूर्णं ॥

—अथ सप्तम जयस्मरणम्—

जयस्मरणमात्रेण जयः सर्वत्र जायते ।

तदहं संप्रवक्ष्यामि,

भव्यानां जयहेतवे ॥१॥

जयस्मरण मात्र से सर्वत्र जय होता है, इसलिये मैं भव्यों के हितार्थ जयस्मरण कहूंगा ॥१॥

ॐ घंटाकर्णो महावीरः

सर्व व्याधिविनाशकः ।

सर्वविघ्नापहर्ता च,

सर्वत्र जयकारकः ॥ २ ॥

ॐ श्री घण्टाकर्ण महावीर, सभी व्याधियों के विनाशक हैं, सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सर्वत्र जयकारक है ॥२॥

यत्र त्व वर्तसे देव !,

लिखिनोऽक्षरपङ्क्तिभिः ।

तत्रावयो व्याधयश्च,

नैवतिष्ठन्ति सर्वदा ॥ ३ ॥

हे देव ! जहाँ पर आप अक्षर पङ्क्तियोंसे लिखित रहते हैं, वहाँ पर आवि और व्याधियोंकी स्थिति कभी भी नहीं होती ॥३॥

उपावयश्च सर्वेऽपि,

शोकश्चिन्ता दग्द्रिता ।

उपसर्गा ग्रहाश्चैव,

प्रशाम्यन्ति न सशयः ॥४॥

सभी प्रकारकी उपाधियां, सभी प्रकारके शोक, चिन्ता, दरिद्रता, उपसर्ग और ग्रह प्रशान्त हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है ॥४॥

डाकिनी शाकिनी चैव,
योगिनी राक्षसा अपि ।

भूताः प्रेताश्च वेतालः

पलायन्ते न संशयः ॥५॥

डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, राक्षस, भूत, प्रेत और वेताल, इस जयस्मरण से दूर भाग जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं ॥५॥

घण्टाकर्णप्रभावेण,

कामधेनुः सुरद्रुमः ।

चिन्तामणि निविश्चैते,

भवन्ति वशवर्तिनः ॥ ६ ॥

घण्टाकर्ण महारत्न के प्रभाव से कामधेनु कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, और निधि, ये सभी वशवर्ता हो जाते हैं ॥६॥

नाकाले मरणं तस्य,

न च सर्पेण दृश्यते ।

अग्निचौर भयनास्ति,

ह्रीं घण्टाकर्णं नमोस्तुते,

ठः ठः ठः स्वाहा ॥ ७ ॥

इस जयस्मरण के स्वाध्याय करनेवालेका
अकाल मरण नहीं होता है, न उसे सर्प डस
सकते हैं, न उसको कभी कोई चोर और
अग्नि का भय होता है। ह्रीं घण्टाकर्ण !
आपको नमस्कार हो, ठ. ठ ठः स्वाहा ॥७॥

॥ इति जयस्मरण संपूर्ण ॥

-॥ ८ अथ विजयस्मरणम् ॥-

(ज्वर आवे, मस्तिष्क पर भार मालूम
पड़ता हो तो किसी से सुनना
अथवा स्वयंपाठ करना)

त्रिजयस्मरणानिश्च,
 सव्वत्थ विजयो भवे ।
 तमह सपवोच्छिस्स,
 सव्वत्तो गोवकारग ॥ १ ॥

त्रिजयस्मरण से नित्य सर्वत्र विजय होती
 है सभी लोगोंका उपकारक उस विजयस्मरणको
 मैं कहूँगा ॥१॥

उवमग्गहर पास,
 पास वन्दामि कम्मवण युक्क ।
 धरणिदपोमावइ,
 सहिय कल्लाणआवास ॥ २ ॥

पार्श्वयज्ञ जिनकी आज्ञाके पालन के लिये सर्वदा तत्पर रहना है, धरणेन्द्र पद्मावती जिनकी सेवाके लिये सतत उत्सुक रहते हैं, ऐसे उपसर्गहारी, कर्मघन से मुक्त, कल्याण के आवास भगवान् श्री पार्श्वनाथ स्वामीको वन्दन करता हूँ ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीं तं नमामि पासनाहं ॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीं उन पार्श्वनाथको नमस्कार करता हूँ ॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीं धरणिंद

नमंसियं दुहविणासं । ४॥

ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र नमस्कृतं दुःख-
विनाशकं प्रभुं को नमस्कारं करताम् ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीं जस्सप्पभावेण सेया ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीं जिनके प्रभाव से कल्याण
होते हैं ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीं नासति उत्रद्वा सव्वे ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीं सभी उपद्रव नष्ट हो जाने
हैं ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीं पद्मसुमरामि त
मणे ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीं उनको मनमें स्मरण करता
हूँ ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीं न होइ वाही न किंपि
दुहं ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीं न कोई व्याधि होती है
और न कोई दुःखी होता है । ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं न होइ जल जलण भयं
तह सप्पसिंह भयं ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीं न जलका भय होता है,
न अग्नि का भय होता है न सर्प का भय होता
है और न सिंहका भय होता है ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीं न होइ चोगगिसभव
भय ॥१०॥

ॐ ह्रीं श्रीं चोर और शत्रुने होने माला
भय नहीं होता है ॥१०॥

ॐ ह्रीं श्रीं पयड न इत्य सदेहो
॥११॥

ॐ ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ प्रभु का यह
पूरुाक्त प्रभाव प्रकट है, यहां कोई सन्देह नहीं
है ॥११॥

ॐ ह्रीं श्रीं नामवि जस्तु तु
मैतसमं ॥१२॥

ॐ ह्रीं श्रीं नाम भी जिनका मन्त्रके
समान है ॥१२॥

ॐ ह्रीं श्रीं जो सुमरइ पासना-
हपहुँ ॥१३॥

ॐ ह्रीं श्रीं जो पार्श्वनाथ प्रभुका स्मरण
करता है ॥१३॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पहवइ
न कयावि कोवि तस्स ॥१४॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कभी भी कोई भी
उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं कर पाता ॥१४॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं श्रीं
 सव्वसुहं पावइ इह लोगट्टी परलोगट्टी
 ॥१५॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं इडलोकार्थी
 आर परलोकार्थी अपने २ अभिलषित सभी
 प्रकार के सुत्रों को प्राप्त करते हैं ॥१५॥

ॐ ह्रीं श्रीं जो सरइ पासनाह
 सोमुच्चइ सव्व दुःखाओ ॥१६॥

ॐ ह्रीं श्रीं जो पार्थनाथ प्रभुको स्म-
 रण करते हैं वे सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त
 हो जाते हैं ॥१६॥

ॐ ह्रीं श्रीं हुं हौं गाँ गीं गः
तह सिञ्भइखिप्पं ॥१७॥

ॐ ह्रीं श्रीं हूं हौं गाँ गीं गः शीघ्र
सकल कार्यसिद्ध होते हैं ॥१७॥

ॐ ह्रीं श्रीं इयनाउ सरेइ भग-
वंतं ॥१८॥

ॐ ह्रीं श्रीं हूं हौं गाँ गीं गः
ऐसा समझकर भगवान का स्मरण करना
चाहिये ॥१८॥

ॐ ह्रीं श्रीं सवसत्ति संपन्न
धरणिंद पोमावइ देवि सव्वत्थविजयं

कुरु कुरु सव्यकित्तिजसोवल, देहि देहि
 सव्व सौभग्ग कुरु कुरु सव्वमगल साधय
 साधय सव्व मनोरथ पूरय पूरय ॐ
 ह्रीं श्रीं नम सिद्ध ॥१६॥

ॐ ह्रीं श्रीं हे सर्वशक्ति सम्पन्न वर
 रोन्द्र आर पद्मावती देवी । सर्वत्र विजय करो,
 सभी प्रकार की कीर्ति यश और बल मुझे दो,
 सभी प्रकार का साभाग्य दो, सभी प्रकार के
 मगलको सिद्ध करो, मेरे सभी मनोरथोंको पूर्ण
 करो, ॐ ह्रीं श्रीं नम सिद्ध ॥१६॥

॥ इति विजयस्मरण सपूर्ण ॥२॥

—❀ ६ शान्तिस्मरण ❀—

शान्तिस्मरण मात्रेण

शान्तिः सर्वत्र जायते ।

तदहं संप्रवक्ष्यामि

सर्वं कल्याणं कारकम् । १॥

६ अथ शान्तिस्मरण ॥

शान्तिस्मरण मात्र से सर्वत्र शान्ति होती है । इसलिये मैं सर्वकल्याण कारक उस शान्ति स्मरण को कहूंगा ॥१॥

शान्तिनाथं प्रभुं वन्दे

मातृगर्भं गतोऽपि यः ।

मारीभये समुत्पन्ने,

लोकाना शातिकारकः ॥२॥

मैं शान्तिनाथ प्रभु की उन्डना करता हूँ, अपनी माताके गर्भ में रहे हुए भी जो मरकीका भय उत्पन्न होने पर लोगों के लिये शातिकारक हुए ॥२॥

यस्मिन् जाते च लोकेषु,

प्रकाशः समजायत ।

शान्तिः सर्वत्र लोकानां

मगलं च गृहे गृहे ॥३॥

जिनके उत्पन्न होने पर तीनोंलोकमें प्रकाश होगया, सर्वत्र लोगों को शान्ति हुई और

घर घर में मंगल हुआ ॥३॥

विश्वसेनो नृपश्चासीत्,

सुन्दरे हस्तिनापुरे ।

अचिराख्या महादेवी

सुव्रता शीलशालिनी ॥४॥

अति सुन्दर हस्तिनापुर नगर में विश्वसेन नामक राजा थे, उनकी रानीका नाम अचिरा देवी था, जो परम पतिव्रता थी और शीलसे सुशोभित थी ॥४॥

तस्या गर्भे समायातः

शान्तिनाथ जिनः प्रभुः ।

त्रिलोकवन्द्यः सर्वेषाः

शोकसन्तापहारकः ॥५॥

उस रानी के गर्भ में, त्रिलोकवन्द्य, सभी के शोक सन्ताप हरने वाले, प्रभु शान्तिनाथ जिन अग्रतरिन हुए ॥५॥

तदा कूटसनिवेशे,

हस्तिनापुरसनिधौ ।

शान्तिप्राप्ता जनाः सर्वे

सकटे समुपस्थिते ॥६॥

उस समय हस्तिनापुर के पास कूटनामक सन्निवेशमें, उपस्थित बहुत सकट से सभी लोगों को शान्ति मिली ॥६॥

कश्चिद्देव स्तदातत्र,
पूर्वैर मनुस्मरन् ।

स्वकीयशक्त्या पाषाण

वर्षाणं कृतवान् परम् ॥७॥

उस समय उस कूट सन्निवेशमें कोई देवने,
अपने पूर्व भवके वैरका स्मरण करते हुए अपनी
वैक्रिय शक्ति से उस गाम पर अत्यधिक पत्थरों
की वृष्टि की ॥७॥

प्रचण्ड पवन स्तत्र,

प्रादुभूतोभयंकरः ।

दावानल समश्चाग्नि,

रुद्भूताः सर्प वृश्चिकाः ॥८॥

फिर वहा पर प्रचण्ड पवन बहने लगी दाया-
 नल की सदृश भयङ्कर आग चारो तरफ लगने
 लगी, और जहरीले सर्प और वृश्चिक (बिच्छ)'
 उत्पन्न हुए ॥८॥

वज्रपातसमोनादः,

सर्वजन्तुभयानक. ।

नद्या.पूरःप्रादुरासीद्

विषधूमस्तथैव च ॥९॥

समी प्राणियो को भय देने वाला वज्रपातस-
 दृश गर्जन होने लगा, नदियों में प्रचण्ड बाढ़
 आने लगी, और विष का धूम फैलने लगा ॥९॥

विद्युत्पातस्तथा व्याधि

रूपाधिश्च सहस्रशः ।

भूकम्पस्तमसाच्छन्नं,

नभः पद्मिरुतैयु^१तम् ॥१०॥

हजारों विद्युत्पात, व्याधि उपाधि और भूकम्प
वहां होने लगे, आकाश अन्धकार से व्याप्त हो
गया और उड़ते पद्मिगण भयान्त^१ शब्द करने
लगे ॥१०॥

शिलावृष्टयाहताः केचित्,

केचिद् वायुरयाऽऽहताः ।

पतन्ति, व्याकुलाः केचित्,

शुष्ककण्ठाः पिपासवः ॥११॥

कितनेक गिलावृष्टि से आहत होकर गिरते ये, कितनेक वायु के प्रचण्ड वेग से आहत होकर गिरते ये, कितनेक प्यास के मारे शुष्ककण्ठ हो व्याकुल होकर गिरते ये ॥११॥

समन्ताज्ज्वलतिग्रामे

हाहाकार युता नगः ।

शब्दाघातेनत्रधिराः,

दृष्ट्या सर्पादिभिस्तथा ॥१२॥

वे कूटसन्नियेश चारों तरफ मे जलने लगा, उनक निरासी लोग हाहाकार करने लगे, कितनेक लोग यद्य जैने शब्द के आघातसे अधिर-

हो गये थे और कितनेक लोगों को सर्पों ने डस लिया था ॥१२॥

नद्याः पूरं समायान्तं,
दृष्ट्वा धावन्ति सर्वतः ।

विषधूमाद्दृष्टिहीना
विद्युत्पातहता अपि ॥१३॥

नदी के बाढ़ को आते देख, मनुष्य चारों ओर भागते थे, विषधूस से कितनेक मनुष्य दृष्टिहीन (अन्धे) हो गये थे, कितनेक बिजली गिरने से मूर्च्छित हो गये थे ॥१३॥

पतन्ति यत्रतत्रापि,
भ्रंभावातहता गृहः

भूकम्पचलिताश्चैव,

जनाउद्विग्नमानसाः ॥१४॥

भूकम्प(आधी) से कितनेक घर जहीं तहीं
गिर गये ये, कितनेक घर भूकम्प से 'अव गिरे
अव गिरे' ऐसे होगये ये, सभी मनुष्यो का चित्त
उद्विग्न हो गया था ॥१४॥

तम प्रच्छन्नदेहाश्च

न पश्यन्ति परस्परम् ।

सजाता भयभीताश्च

जना.कल्पान्तशङ्कया । १५॥

अपार इतना बढ़ गया कि लोग एक

दूसरे को परस्पर नहीं देख पाते थे । सभी मनुष्य कल्पान्त (प्रलय) की आशङ्का से भयभीत हो गये थे । ॥१५॥

कश्चिदेको जनस्तत्र,

भीत्याऽऽयातो नृपान्तिके ।

उवाच करुणासिन्धो !

त्रायस्व शरणागतम् ॥१६॥

उस कूट सन्निवेशका भयभीत कोई एक मनुष्य, राजा के समीप आया, और बोला हे करुणासिन्धु ! शरणागतकी रक्षा करो ऐसा कह कर सब वृत्तान्त सुनाया ॥१६॥

देशवार्ताहरास्तत्र

तदैव समुपागता ।

अचुनृपान्तिके सर्वे

देशविप्लवदुर्दशाम् ॥१७॥

सर्वत्र च महामारी

महादुष्टा पिशाचिनी ।

निपात्य दुःखगते च

। जनान् भक्षति सर्वतः ॥१८॥

उसी समय देशवार्ताहर (राज्यकी परि-
स्त्रिति का समाचार लानेवाले दूत) भी ग्रहा

आये, और उन लोगों ने भी, देशमे जो विप्लव और दुर्दशा का साम्राज्य छाया हुआ था उसका यथार्थ वर्णन किया। फिर उन दूतोंने राजा से कहा हे महाराज ! देश में सर्वत्र महा-दुष्टा महामारी पिशाचिनी लोगों को दुःख के गर्त (खडे) में डाल कर चारों तरफ से खा रही है, अतः इसका प्रतीकार आवश्यक है ॥१७-१८॥

एतन्निशम्य वचनं

भूपति जनवत्सलः ।

विश्वसेनः कृपासिन्धुः

प्रतिज्ञा मकरोत्तदा ॥१९॥

सर्वथानैव शान्तिः स्याद्

यावत्काले प्रजासु च ।

चतुर्विंशान् त्याज्य

तावत्काले मया ब्रुवम् ॥२०॥

दृतां मा यह पवन सुनकर प्रजात्मल, कर-
णा के सागर राजा विश्वसेन ने यह प्रतिज्ञा की
कि जब तक प्रजा में सर्वथा शान्ति नहीं होगी
तब तक के लिये मैं चारों प्रकार के आहार का
परित्याग करता हूँ ॥१९-२०॥

आगतस्तत्र देवेन्द्र

स्तदेव चलितासनः ।

उवाच नृपतिं राजन् !

कष्टं किं तव विद्यते ॥२१॥

राजा की इस प्रतिज्ञा से देवेन्द्र का आसन चलित हो गया और वे राजा के समीप आये और कहने लगे - हे राजन ! आपको क्या कष्ट है जो आपने चारों प्रकार के आहार का परित्याग किया ? ॥२१॥

विश्वसेन नृपः सर्वं

देवेन्द्रं वृत्त मब्रवीत् ।

दुःखःवार्तां समाकर्ण्य,

सुरेन्द्रः प्राह भूपतिम् ।२२।

वृथाकिं खिद्यते राजन् !

मन्निधि र्यस्य सनिवौ ।

चिन्तामणि सुतरु.

कामधेनुञ्च वर्तते ॥२३॥

सर्वशक्तियुतो देव.

सर्वं शान्तिकर. प्रभु ।

जनन्या उदरे गजन् ।

वर्तते भ्रमे तव ॥२४॥

देवेन्द्र वा उच्यते राजन् गुह्यं विद्महे तदा
 ने, यद्ये देवाः ही दुर्गा हा नव नव तद
 मुनाया । पुनः साग मुह्यं देवेन्द्र ने गजा ने

इस प्रकार कहा: —

हे राजन् जिसके पास चिन्तामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु है, ऐसे आप व्यर्थ ही क्यों खिन्न होते हैं ? क्यों कि हे राजन् । आपके भवन के अन्दर अचिरा रानी के कुक्षि में सर्वशाक्त सम्पन्न, सभी को शान्ति देनेवाले प्रभु विराज रहे है ॥२२-२३-२४॥

इत्युक्त्वा तत्र देवेन्द्रो

मातृगर्भं गतं जिनम् ।

भावेन स्तोतुमारेभे,

सर्वं शान्तिं प्रकाम्यया ॥२५॥

इस प्रकार राजा को आश्रय देकर देवेन्द्रने सभी लोगों में शान्ति दी, इस कामना से मातृ-गर्भ स्थित जिन भगवान की मान-पूर्वक स्तुति प्रारम्भ की ॥२५॥

कपूर् र शीतल-लौक्रे,

तस्मादपि च चन्दनम् ।

ततश्चाप्यधिकश्चन्द्र

स्तस्मादप्यधिको भवान् ॥२६॥

लोकोत्तमो लोकनाथो,

लोकप्रद्योतकारकः ।

चतुर्दो मार्गदश्चापि

धर्मदः शुद्धबोधिदः । २७॥

अवधि ज्ञान संपन्नो

भव्याब्जोद्बोध भास्करः ।

जनानन्दकरः सर्व-

शुद्ध धर्म प्रकाशकः । रिद्धा

चन्द्रमाश्रयते हतुमा-

काशः स्वगतं तमः ।

तथा दुःखतमो हतुमा-

प्रभो ! त्वा माश्रये ध्रुवम् ॥ २८ ॥

सर्वसिद्धिप्रदः सर्व-

सिद्धौषधि समः प्रभुः ।

स्मृतमात्रो भवानत्र

सर्वथा शान्तिकारकः ॥३०॥

अज्ञानतिमिरध्वस—

भानुमन् करुणार्णव ।

आल्हादने शरच्चन्द्र !

साऽन्द्रशान्तिकरोभव ॥३१॥

(देवेन्द्र ने जो स्तुति की वह इस प्रकार है)

लोक में कपूर शीतल है, उससे भी शीतल

चन्दन है, चन्दन की अपेक्षा अधिक शीतल

चन्द्र है, और चन्द्र से भी शीतल आप है । हे

भगवन् ! आप लोकोत्तम (लोक में सर्व श्रेष्ठ)

हैं, लोकनाथ हैं, लोक को प्रकाशित करनेवाले

हैं, ज्ञान चक्षु देनेवाले हैं, मार्ग देनेवाले हैं,
 धर्म देनेवाले हैं, और शुद्ध वौधि देनेवाले हैं ।
 हे भगवन् ! आप अवधिज्ञान से युक्त हैं,
 भव्यरूपी कमलों को विकसित करने में आप
 भास्कर हैं, सभी मनुष्यों को आनन्द देनेवाले
 हैं, सर्वविशुद्ध धर्म के प्रकाशक हैं, हे प्रभो !
 जैसे स्वगत अन्धकार को दूर करने के लिये
 आकाश चन्द्रमा का आश्रयण करता है उसी
 प्रकार दुःखरूपी अन्धकार को दूर करनेके लिये
 हम आपका आश्रयण करते हैं । हे भगवन् !
 आप सभी सिद्धियों के दाता है, आप समस्त
 सिद्धौषधि के समान हैं, आप तीनों लोक के
 प्रभु हैं, हे भगवन् ! आप स्मरणमात्र से इस

ससार में लोगों के लिये सभी प्रकारसे शान्ति-
कारक है। हे भगवान् ! आप अज्ञानरूपी अन्ध-
कार के नाश करने में सूर्यरूप हैं आप करुणा
के समुद्र हैं, आप प्रजाओंको आल्हादित करने
में शरचन्द्ररूप हैं, ऐसे आप हे भगवान् ! लोक
में पूर्ण शान्तिकारक हों ॥२६-२७-२८-२९-
३०-३१ ॥

एवं स्तुत्वा जिन शक्र

स्तन्मातर मवोचत । -

स्मरणात्मकमिदं स्तोत्र

ब्रूहिमात. स्वयं शुभम् ॥३२॥

इस प्रदण्डलोकी प्रकार जिनेन्द्र भगवान् की

स्तुति करके देवेन्द्रने जिनेन्द्र की माता अचिरा
 देवी से कहा-हे माता ! इस स्मरण रूप स्तोत्र
 को आप स्वयं पढ़ें ॥३२॥

इन्द्रस्य वचना देवी

प्रासाद मभिरुह्य सा ।

स्तोत्रं पठति भावेन

विलोक्य परित स्तदा ॥३३॥

सकृत्पठन मात्रेण,

शान्तिर्जाता च सर्वथा ।

सर्वत्र सर्वलोकेषु,

ऋद्धिः सिद्धिश्च संपदः ॥३४॥

इन्द्र का वचन सुनकर अचिरा देवी ने, राज
 भवन के उपर चढ़कर चारों तरफ देख कर,
 भागपूर्वक इस स्तोत्र को पढा। इस स्तोत्र के
 मात्र एकवार पढ़ने से आवि, व्याधि, उपाधि
 भिट कर सर्वत्र पूर्ण शान्ति हो गयी, सभी लोग
 ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्ति से युक्त हो गये
 ॥३३-३४॥

यदा पुन जिनेन्द्रस्य

जन्मकालः समागतः ।

तदा समस्तलोके च

स्वयं शान्ति रूपागता ॥३५॥

फिर जब भगवान् जिनेन्द्र का जन्मकाल

आया, उस समय सकल जगत्में स्वयमेव शान्ति
छा गयी ॥३५॥

प्रसन्नाश्च जनाः सर्वे

सङ्गलं च गृहे गृहे ।

जाते शान्तिकरे शान्ति-

नामके षोडशे जिने ॥३६॥

शान्ति करने वाले शान्तिनामक सोलहवें
जिनेन्द्र के जन्म लेने पर तो सभी मनुष्य प्रसन्न
हो गये, घर घर में मंगल छा गया ॥३६॥

शांति स्मरणा पाठेन

सर्वत्र शुभ भावतः ।

ऋद्धिः सिद्धिः सुख

सप उजायते सर्व मङ्गलम् ॥३७॥

शुभ भावना से इस शान्ति स्मरण का पाठ करने से मनुष्य को सर्वत्र ऋद्धि, सिद्धि सुख, सम्पत्ति और सभी प्रकार के मङ्गल प्राप्त होते हैं ॥३७॥

॥ इति शान्तिस्मरण संपूर्ण ॥

॥ इति अद्भुत नवस्मरण संपूर्ण ॥





प्रात स्मरणीय

श्री गौतम-रास

दोहा

गुण गाऊ गौतम तणा, लब्धि तणा भंडार ।
बडा शिष्य भगवन्तना, जाणें जग ससार ॥१॥
प्रतिबोध्या प्रभुजी कने, गणधर गौतम स्थाम ॥
सजम पाली सिद्ध हुआ, जारो नित प्रत लीजे
नाम ॥ २ ॥

नम्र पहला

तीरथनाथ त्रिभुवन धणी, प्रभु शासन ना
सिरदार ॥ भक्ति करी भगवन्तनी, जाणें मन
बाद्धित दातारजी ॥ सुमर्श पण सुख श्रेष्ठारजी
जठें वरते जैवहारजी ॥ प्रभु पहुँचा सुगत

मुंजारजी, प्रभु थाप्या तीरथ चारजी ॥ चारों
सग मांहे सिरदारजी, गौतम नामा गणधारजी ॥
जाने होब्यो मारो नमस्कारजी, दिहाडा बिच-
वार हजारजी ॥ १ ॥

॥ श्री गौतम स्वामी में गुण घणा ॥

॥ टेर ॥ सोलमा सोना सरखाजी, सुन्दर
रूप शरीर ॥ कंचन कसोटी चढाविया, भगवती
में भाख्यो श्री महावीरजी ॥

जाने दीठा हर्षत हीरजी, स्वामी सायर जेम
गम्भीरजी ॥ उपशम खम दम में धीरजी, जांरी
वाणी मीठी खांड खीरजी, मीठो खीर समुद्र नो
नीरजी ॥ स्वामी छकाया ना पीरजी, वीरजी रे
हुआ वीरजी ॥ श्री गौतम स्वामी में गुण
घणा ॥ २ ॥ गोरा ने घणा फूटराजी कंचन

कौमल गान ॥ देही जारी दीपू दीपू करे ॥
 देवता पण कीर्तरीक वानजी, रोग रहिन काथा
 सात हाथजी ॥ घणा रखा गुरा रे साथजी, सेवा
 कीन्ही दिन ने रातजी ॥ प्रश्न पुछे जोन्ही दोनों
 हाथजी, जारी कहुँ कठा लग बातजी ॥ जारे
 वीरजी दीपो माये हाथजी, हुआ तीन भु-नरा
 नाथजी ॥ श्री गौनम स्वामी मे गुण गणा ॥३॥
 प्रथम सघयण सटाण सु जी, गुण घणा भरपूर ॥
 घोर ब्रह्मचर्य माहि बस रखा हे तपस्वी मोटा
 मूरजी ॥ कार क र्थी जाये दूरजी, दीपे तपस्या
 मे अति पूरजी ॥ आठो कर्म किया चक्रचूर-जी,
 जाने पन्दना उगन्ते मूरजी ॥ जारो चोपो घणो
 ले नूरजी, जारो भजन किया दुव दूरजी ॥ श्री
 गौनम स्वामी मे गुण गणा ॥ ४ ॥ अभिमद

कीन्हों आकरोजी, विस्तार भगवती रे मांय ॥
 चार ज्ञान चत्रदे पूर्ण धणी, तेजु लेस्यां छे पिंड
 मांयजी ॥ दपटी राखी छे काया मांयजी, दीनो
 ध्यान सुचित लगायजी ॥ उकडु वैटा शीश नमा-
 यजी, जांरी करणी में कमियन कांयजी ॥ जांरो
 भजन किया सुख थायजी ॥ श्री गौतम स्वामी
 में गुण घणा ॥ ५ ॥ पुछा ज्यां कीन्ही वणीजी
 आणी मन आणन्द ॥ श्रद्धा में संशय नहीं
 उपनो, उपनो केवल उच्छरंगजी ॥ वांद्या श्रीवीर
 जिणन्दजी, पडुंच्या देश प्रदेशना स्कन्धजी ॥
 अणंत ज्ञानी त्रिशलादे के नन्दजी, सूत्र मेल-
 दिटा सज्ञे संदजी ॥ सेवे जाने सुरनर-वृंदजी,
 सोहे तारा विच में चन्दजी ॥ श्री गौतम स्वामी

मे गुण घणा ॥ ६ ॥ सूत्र भगवती मे पूछिया-
 जी, प्रश्न अनेक प्रकारजी ॥ अग उपाग मे
 पूछियाजी, पूछया वारम्बारजी ॥ तीर्थनाथ कियो
 निहारजी, गौतमजी ने तारणहारजी प्रभु ज्ञान
 तणा भडारजी ॥ ज्यारी बुद्धि रो कोई नहीं
 पारजी, घणा जीग पे कियो उपकारजी ॥ ज्या
 पुरुपारी जाउ बलिहारीजी ॥ श्री गौतम स्वामी
 मे गुण घणा ॥७॥ एक दिन गौतम मन चिन्त-
 वेजी, मने क्यों न उपजे केवल ज्ञान ॥ खेद
 पान्या प्रभु देखने, बौलाया श्रीमद्धर्मानजी, गौतम
 सनमुख उभा आणजी, गीर आदर दियो सन-
 मानजी ॥ मन बाद्धित दीनो दानजी, गौतम गुण
 रत्ना की खानजी ॥ चित्त निर्मल राख्यो ध्यान
 जी, तग्यो मोह मत्सर अभिमानजी ॥ छ सया

ने दीयो अभयदानजी, धन धन श्री गौतम स्वाम
 जी ॥ श्री गौतम स्वामी में गुण घणा ॥ १॥ थारे
 ने मारे गोयमा रे घणा काल की प्रीत ॥ आगे
 ही आपां भेला रह्या, बली लोड बडाई नी रीत
 जी ॥ मोह कर्म को लीजो थे जीतजी, केवल
 आडी याहीज भीतजी ॥ थे तो शिष्य बडा
 सुविनीतजी, थे लो राखज्यो रुढी रीतजी ॥ थे
 तो पालजो पूरी प्रीतजी, मत राखजो वासी सीथ
 जी ॥ श्री गौतम स्वामी में गुण घणा ॥ ६ ॥
 वीर वचन इम सांभलीजी कीन्हों कर्म सुजंग ॥
 करणी कीधी निरमली, श्री वीर तणा सुविनीत
 जी ॥ दुआ ब्राह्मण केरा पूतजी, छोड़ी न्यानीला
 सुं प्रीतजी ॥ ज्यारे वीर वचन आया चित्तजी ॥
 तज दीनी खोटी रीतजी, ज्यारे आई सांची

प्रोतजी ॥ जोडी जुात सुात सु प्रीतजी, तपसी
 मोटा का कडा भूतजी ॥ प्रभु गया जमारो जंत
 जी, वर्म ब्यानी जीपारा मीतजी ॥ श्री गौनम
 स्वामी मे गुण प्रणा ॥१०॥ ज्ञान दर्शन चारित्र
 भणीजी, पाले निर अतिचार ॥ बेले बेले पारणा
 प्रभु जीत्या राग ने रीसजी ॥ ज्यारी करणी
 प्रिमना रीसजी, जारे भजन किया निसदीमजी ॥
 ज्यारी पूर मन जगीमजी, ज्यातेहुँ नमाउ म्हारो
 शीशजी ॥ श्री गौनम स्वामी मे गुण घणा ॥११॥
 इण भय आगे आतरे, थापा दोनु बराबर
 होय ॥ अजर अमर सुग सासना ॥ जठे जनम
 मरण नही होयजी ॥ भूख तृपा न लागे कोयजी,
 गुरु मोटा मिलिया मोयजी ॥ म्हारे कमी न
 राखी कोयनी वीर रे सामा रया छे जोयतो,

ज्याने दीठा हर्षित होयजी ॥ श्री गौतम स्वामी
 में गुण घणा ॥ १२ ॥ सनमुख वीर बखाणि-
 याजी, गौतम ने तिणवार ॥ म्हारे थारा सरीखा
 बीजा थोडा, पाखण्ड्यारा जीतण हारजी ॥
 चरचा वाद में तुरत तैयारजी ॥ हेतु जुगत अनेक
 प्रकारजी, सहु साधु थारे लारजी ॥ सांभल
 हर्षित थाय अपारजी ॥ श्री गौतम स्वामी में
 गुण घणा ॥ १३ ॥ कार्तिक वडो अमावस्याजी
 सुगत गया महावीर ॥ गौतम स्वामी ने ऊपनो
 निर्मल केवल ज्ञानजी, धर्म दिपायो नगर पुर
 ठामजी ॥ सासता सुख पाया अभिरामजी, वार
 वार करुं गुण ग्रामजी ॥ स्वामि पहुँच्या शिवपुर
 स्थानजी, धनधन श्रीगौतम स्वामजी ॥ श्री गौतम

स्वामी मे गुण घणा ॥१४॥ ससार समुद्र जाण
 ने जी, मोह कर्म कियो दूर ॥ अनित्य भावना
 भावने, पाया कैवल दर्शन सारजी ॥ गौतम
 नामा गणपारजी ॥ आप तथा घणा जीवा ने
 तारजी जाने मन्ना पारपारजी ॥ जारो नाम
 लिया निम्नारजी ॥ जपता होये सेवा पारजी ॥
 श्री गौतम स्वामी मे गुण घणा ॥१५॥ पूज्य
 जयमलनी परमाद से जी, कौनो जान अभ्यास
 सन्यत अटारे चाँतीसमे, सुन्दर भाद्रप मानजी,
 गौतमजी रो कौन्टो रासजी ॥ मुणज्यो चित
 दुःखासनी, जिनमे पायो लील विलासजी । श्री
 वीरानेर चाँदानजी ॥ मह माधु धार पासजी
 रित्र रासमन्दी कियो परमागजी । श्री गौतम
 स्वामी मे गुण घणा ॥१६॥

दशवें कालिक सूत्र

अव्ययन १ पहला

नमो सिद्धाणां ॥ धंमो संगल मुक्किट्ठं
 अहिंसा संयमो तवो । देवा वितं नमं
 संति । जस्स धंमे सया मणो ॥१॥
 जहा दुमस्स पुप्फेसु । भमरो आवियइ
 रसं ॥ न य पुप्फं किलामेइ । सोय
 पीणेइ अप्पयं ॥२॥ एमेए सम्मणा मुत्ता ।
 जे लोए संति साहुणो ॥ विहंगमाव
 पुप्फेसु दाण भत्ते सणे रया । ३॥ वयं
 च वित्तिं लब्भामो । नच कोइ उवह-

म्मइ ॥ अहागडेसु रीयन्ते । पुप्फेसु
 भमग जहा ॥४॥ महुगार सम्मा बुद्धा ।
 जे भवन्ति अणस्सिया ॥ नाणा पिड
 रया दन्ता । तेण बुच्चन्ति साहुणो ॥
 त्तिवेमि ॥५॥

इति दुम पुप्फिया नाम पढम अज्जण समत्त ॥

—अध्ययन २ दूसरा—


कह नुकुजा सामएण । जो कामे च
 निवारण ॥ पए पए विसीयन्तो सकपस्स
 वस गत्रो ॥१॥ वत्थ गव मलकार ।
 इत्थीओ सयणाणिय ॥ अच्चन्दा जेन

भुंजन्ति । न से चाइति बुच्चइ ॥२॥
 जेय कन्त पिए भोए । लद्धे वि पिट्ठी
 कुव्वई ॥ साहिणे चयइ भोए । सेहु
 चाई ति बुच्चइ ॥३॥ समाइ पेहा इ
 पखियन्तो । सिया मणो निस्सरइ
 बहिद्धा ॥ न सा महं नो वि अहं पि
 तीसे । इच्चेव तात्रो विणएज्ज रागं
 ॥४॥ आया वयाहि चय सोग मल्लं ।
 कामे कमाहि कमियं खु दुक्खं ॥
 छिन्दाहि दोसं विणएज्ज रागं । एवं
 सुही हो हिसि सम्पराए ॥५॥ पक्खन्दे

जलिय जोइ । धूप के ऊ दूरामय ॥
 नेच्छन्ति वन्तय भोत्त । कुले जाया
 अगधणे ॥६॥ विरथ्यु तेऽजसो कामी
 जो त जीविय कारणा ॥ वन्त इच्छसि
 आवेउ । सेय ते मरण भवे ॥७॥ अहं
 च भोग रायस्स । त च सि अन्ध ग
 वण्हणो । मा कुले गवणा होमो ।
 सजमं निहुओ चर ॥८॥ जइ तं का-
 हिसि भावं । जा जा दिच्छसी नारी
 ओ ॥ वाया विद्दुव्वहडो । अट्ठि

अप्पा भविस्ससि ॥६॥ तीसेस वयणं
 सोच्चा । संजयाइ सुभासियं ॥ अंकु
 सेण जहानागो । धम्मे सम्पडि वाइयो
 ॥१०॥ एवं करन्ति सम्बुद्धा । परिडया
 पविपक्खणा निणियट्ठरि भोगे सु
 जाहा से पुरिसुत्तमो ॥ तिबेमि ॥११॥

॥ इति सामण्य पुत्रय नाम त्रिर्त्तयं
 अज्झयणं समतं ॥



श्री वीर स्तुति

॥ पुच्छिमुण समणा माइणाय ॥ आगारिणो
या परतित्थयाय ॥ से वेइ खेगन्त हि य धम्म
माहु ॥ अणेलि स साहु समिन्खयाए ॥१॥ कहच
नाए कह दसण से ॥ सील कह नाय सुयत्स
आसी जाणासिण भिक्खु जहानहेण ॥ अहा
सुय भूहि जहाणि सल ॥२॥ खेयन्न ए से कुसले
महेसी ॥ अणत नाणीय अणन्त दसी ॥ जसं-
सिणो चक्खुपहे ठियम्स ॥ जाणाहि धम्म चवि
उपच पेहि ॥३॥ उड्ड अहेय तिरिय दिसामु ॥
तसा य जे यापर जे य पाणा ॥ सेणिच्च णि-
च्चेहि समिन्ख पन्ने ॥ दीवे व धम्म समिय
उदाहु ॥४॥ से सय दसी अभिभूय नाणी ॥ नि
राम गवेदिम ठिशापा ॥ अणुतरे मय जगमि

विष्जं ॥ गंधा अतीव अभय अणाङ्क ॥५॥ से
 भूइ पन्ने अणिए अचारी ॥ ओ हंतरे धीरे
 अणान्त चक्खु ॥ अणुत्तरं तप्पइ सूरिए वा ॥
 वहरोयणिन्देव तमं पगासे ॥६॥ अणुत्तरं धम्म
 मिएणं जिणाणं ॥ गेया मुनी का सव आसुपन्ने
 इ देव देवाण महाणुभावे ॥ सहस्सणेया
 दिविणं विसिट्ठे ॥७॥ से पन्नया अक्खय साग
 रे वा ॥ महोदही यावि अणान्त पारे ॥ अणाइ
 लेया अकसाइ भिक्खू ॥ सक्केव देवाहि वई जु
 डमं ॥८॥ से वीरिणं पडि पुण्णवीरिए ॥ सुदंस
 णे वा णग सव्व सेट्ठे ॥ सुरालए वासी मुदा गरे
 से ॥ वीरायण से गेग गुणोव वेए ॥ ९॥ सयं
 सहस्साण उजोयणाण ॥ तिकण्ड गे पण्डग

वंजयन्त ॥ से जोयणे नत्र नत्र ते सहस्त्रं
 उड्डु सियो हेष्ट सहस्त्रमेग ॥१०॥ पुष्टे नभे
 चिष्टु भूमि रष्टिण ॥ ज सृग्नि अणुपपिष्ट-
 यन्नि ॥ से होमयन्ते बहु नन्दणेय ॥ जसि रनि
 वेदयती मष्टिडा ॥११॥ से पञ्चण सदमहष्पगा-
 मे ॥ विरायती कचणमष्टयन्ते ॥ अणुत्तरे
 गिग्गिमु च पञ्च दुग्गे ॥ गिरियर से जालिण्य
 भोमे ॥१२॥ मष्टिइ मज्जान्नि टिण एगिन्दे ॥
 पण्णापण सृरिय मुद्ध लसे ॥ एय निरीण उय
 गृरियण्ये ॥ मणोरने जोयड अचियमार्त्ती ॥१३॥
 मुष्टमण सेय जन्तो गिरिस्स ॥ पणुचद मष्ट तां
 पञ्चयस्स ॥ एतांय मे समणे नाय पुते ॥ जाठ

जसो दंसण नाणसीले ॥१४॥ गिरिवरे रा नि
सहाययाणं ॥ रूप एवं सेट्ठे वल पाय ताणं ॥
तत्रो व में से जग भूइ पन्ने ॥ मुणीण माके
तं उदाहु पन्ने ॥१५॥ अणुतरं धम्ममुई रइता ॥
अणुतरं भाणवरं भियाइं ॥ सु सुक्क सुक्कं
अपगंड सुक्कं ॥ संखिं दुणान्त वदात सुक्कं
॥१६॥ अणुतरगं परमं महेसी ॥ असोस कम्मं
स विसोह इत्ता ॥ सिद्धिं गते साइमणन्त पते ॥
नारोण सीलेणय दंसरोण ॥१७॥ रुक्खैसु नाए
जह सामलीवा । जस्सि रति वेदयति सुवन्ना ॥
वरोसु वा नन्दण माहुसेट्ठं ॥ नारोण सीलेण
य भूइ पन्ने ॥१८॥ थणिय व सदाण अणु-

तरेड ॥ चन्द्रो व ताराण महाणुभावे ॥ गँवे
 सुग चन्दन माहु सेट्टे ॥ एव मुणीण अपडिन्न
 माहु ॥१८॥ जहासयचूडहीण सेट्टे ॥ नागे
 सुग वरणिन्द माहु सेट्टे ॥ खो ओदए वारस
 वेजयन्ते ॥ तपो पहाणे मुणी वेजयन्ते ॥२०॥
 इत्थी सु एराण माहुणाए ॥ सिहोमियाण
 सलिलाण गगा ॥ पक्खी सु वा गुरु ल वणु
 देवे ॥ निव्राण वादीणि हनायपुते ॥२१॥
 जोहे सुणाण जह प्रीससेणे ॥ पुप्फेसु वा जह
 अरविन्द माहु ॥ सर्वाण सेट्टे जह दन्त पफ्फे ॥
 इमीण सेट्टे तहपदमाणे ॥२२॥ दाणाण सेट्टे
 अभयप्पराण ॥ सन्धेसुग अणपज्ज पयन्ति ॥
 तवेसुग उत्तम पभनेर ॥ लोगुत्तमे समणे

नायपुते ॥२३॥ ठिईण सेट्टा लव सत्तमा वा ॥
 सभा सुहम्मा व सभाण सेट्टा ॥ निव्वाण सेट्टा
 जह सव्वधम्मा ॥ ए नायपुता परमत्थि नाणी
 ॥२४॥ पुढोव मे धुणई विगय गेहि ॥ न सन्नि
 हि कुव्वइ आसुपन्ने ॥ तरिउं समुदं व महा-
 भवोधं ॥ अभयं करे वीर अणन्त चक्खू ॥२५॥
 कोहंच माणं तहेव मायं ॥ लोभंचउत्थं अज्झत्थ
 दोसा ॥ एयाणिवन्ता अरहा महेसी ॥ एकुव्वइ
 पावन कारुवेइ ॥२६॥ किरिया किरियं वेण इ
 याणुवायं ॥ अन्नाणियाणं पडियच्च ठाणं ॥
 से सव्व वायं इति वेयइत्ता ॥ उवट्ठि ए संजम
 दीहरायं ॥२७॥ से वारिया इत्थी स राइभतं ॥
 उरहाणव दुक्खे खयइयाए ॥ लोगं विदिता

आर परच ॥ सव्य पभ्रारिय सध्ववार ॥२८॥
 सोन्चाय वध्म अरहन्त भासिय ॥ समादिय
 अट्टपटो व सुद्व ॥ त मद्दहाणायजणा अणाउ ॥
 इन्दा व देवाहि व आंगमिस्सन्ति ॥२९॥ इति
 श्री गीर स्तुति सम्पूर्ण ॥

+

+

+

ॐ नमो अरि हताण, भजरे मन वार वार
 ॐ नमो श्री सिद्धाण, भजरे मन वार वार
 ॐ नमो आगरियाण, भजरे मन वार वार
 ॐ नमो उवज्जायाण, भजर मन वार वार
 ॐ नमो सव्य साहण भजरे मन वार वार

—: मंगल पाठ :—

अरिहत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय
साधू जीवन जय जय, जैन धर्म जय जय,
अरिहत मंगलं, सिद्ध प्रभु मंगलं,
साधू जीवन मंगलं, जैन धर्म मंगलं,
अरिहत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा
साधु जीवन उत्तमा, जैन धर्म उत्तमा,
अरिहत शरणं, सिद्ध प्रभु शरणं
साधु जीवन शरणं जैन धर्म शरणं

—: ● :—



